



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 17—नवम्बर 23, 2012 (कार्तिक 26, 1934)
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 17—NOVEMBER 23, 2012 (KARTIKA 26, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2012

सेना शाखा

सं. 474, दिनांक 22 अक्टूबर 2012—राष्ट्रपति, भारत सरकार रक्षा
मंत्रालय के पत्र संख्या बी/32313/पीसी/एजी/पीस-2(ए)921/डी(एजी)
दिनांक 20 जुलाई 2006 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके
02 मार्च 2012 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर के रैक में
02 मार्च 2012 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:—

(आईसी-65575एच) संजीव कुमार डोगरा (एसएस-39589एल),
एएससी

(आईसी-65576एल) अनुराग अरी (एसएस-39590ए), इन्फैन्ट्री

(आईसी-65602एफ) तपन सिंह तोमर (एसएस-39632एफ), मैक
इन्फैन्ट्री

(आईसी-65612एल) पी प्रभु राज (एसएस-39650के), आर्टी

(आईसी-65613 एन) अजय सिंह (एसएस-39651एम), इन्फैन्ट्री

(आईसी-65615वाई) आशीष द्विंगन (एसएस-39655एच), इन्फैन्ट्री

(आईसी-65616एफ) गौरव अरोड़ा (एसएस-39656एल), आर्टी

उपरोक्त अधिकारियों की स्थाई कमीशन में निम्नलिखित तारीख
होगी:—

वेतन वृद्धि के लिए तारीख - 02 मार्च 2002

पदोन्नति के लिये तारीख - 02 नवम्बर 2002

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष
में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है तथा उनके बैच के अधिकारी जिन्हें
सेवा के पांच वर्ष बाद में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया उनकी परस्पर
वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र
अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 तथा 7 विशेष 66 के अंतर्गत
निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित डब्ल्यू एसडब्ल्यूएस (ओ) अधिकारी को उनके 24 अगस्त 2001 से डब्ल्यूएसडब्ल्यूएस (ओ) कमीशन छोड़ने पर लेफिटेन्ट के रैंक में 24 अगस्त 2001 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:—

(आईसी-55747वाई) (डब्ल्यूएस-00197एफ) लीना गुरुव, जैग

उपरोक्त अधिकारी की स्थाई कमीशन में निम्नलिखित तारीख होगी:—

वेतन वृद्धि के लिये - 24 अगस्त 1996

पदोन्नति के लिये - 24 अगस्त 1997

उपरोक्त डब्ल्यू एसडब्ल्यूएस (ओ) कमीशन अधिकारी तथा उनके परस्पर कमीशन प्राप्त अधिकारियों जिन्हें समान तिथि तथा समान वरिष्ठता के साथ स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो डब्ल्यूएसडब्ल्यूएस (ओ)/एसएससीओ कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

जितेन्द्र ओहरी

कर्नल

कर्नल सेना सचिव 7

सेना शाखा

सं. 475, दिनांक 22 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 01 (एक) जैप्टलमैन कैडेट जो कि 111 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम के हैं, को 11 जून 2011 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टीजीसी पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है:—

टी/6882 अंकित रौय (आईसी-75739एफ) आर्टी की वरिष्ठता यू/1007 दुलव स्वैन (आईसी-75738वाई), एएडी के नीचे।

स्थाई आयोग

लेफिट के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2010 से

निम्नलिखित 126 नियमित पाठ्यक्रम (126 डाइरेक्ट एन्ट्री, 116 एनडीए, 93एसीसी) के कैंडिटों को सशस्त्र सेना में लेफिटेन्ट के पद पर दिनांक 12 जून 2010 से स्थाई रूप से सेना निदेश ए/एस/74 (डाइरेक्ट एन्ट्री), सेना निदेश 53/78 को विसेनि/ए एस/74 को साथ पढ़ा जाये (एनडीए), सेना निदेश 55/74 (एसीसी) के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है:—

(आईसी-72317एल) यशोवर्धन भाटी, इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता (आईसी-72316एच) अरनब आनन्द सन्याल, आर्टी के नीचे (आईसी-72468के) सेट्डी गौरव मोहन, इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता (आईसी-72467एफ) राधारमन गोस्वामी, आर्टी के नीचे (आईसी-72507एक्स) अरविन्द शर्मा, एसएसी की वरिष्ठता (आईसी-72506पी) सतीश कुमार यादव, इन्फैन्ट्री के नीचे, (आईसी-72532डब्ल्यू) आदिय, आर्टी की वरिष्ठता (आईसी-72531एन) विक्रम यादव राठौर, मैक इन्फैन्ट्री के नीचे, (आईसी-72549के) अरुण दास ए, इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता (आईसी-72548एफ) लोनकर अश्वन रमेश, एएडी के नीचे, (आईसी-72571पी) हरी नील वरुण शर्मा, आर्टी की वरिष्ठता (आईसी-72570एम) भुपेन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री के नीचे प्रकाशित किये जायें, जिनके नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी 2011 को प्रकाशित हो चुके हैं।

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 01 (एक) जैप्टलमैन कैडेट जो कि 111 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी) के हैं, को लेफिट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टीजीसी पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है:—

टी/6882 अंकित रौय (44690पी), सिगनल्स, 16 अगस्त 2010

जैप्टलमैन कैडेट को दिये गये आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

राहुल सांगवान
लेफिट कर्नल
एमएस-8बी

सेना शाखा

सं. 476, दिनांक 22 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

अल्प सेवा आयोग

लेफिट के पद पर

निम्नलिखित सात जैन्टलमैन कैडेट्स जो अल्प सेवा आयोग-91 पाठ्यक्रम के हैं, ने छ: मास का समय जो कि दिनांक 19 मार्च 2011 से आरंभ हुआ था लेफिट के पद पर पूरा कर लिया है, उनको उसी तिथि दिनांक 19 मार्च 2011 से 10 वर्ष के लिए लेफिट के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अंतर्गत जो कि भारत सरकार के पत्र सं. बी/32313/पीसी/एजी/पीएस-2(ए) 921/डी(एजी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए प्रदान किया जाता है:—

सातारे अमोल अविनाश (एसएस-44427के), इंजीनियर्स की वरिष्ठता विनोत भट्ट (एसएस-44426एफ), ईएमई के नीचे, निंगथाऊजम सुभाष सिंह (एसएस-44430के), इन्फैन्ट्री और राजकुमार (एसएस-44432पी), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता हरी प्रसाद यूएस (एसएस-44428एम), मैक के

नीचे, राजकुमार अविक गोहाई (एसएस-44449एच), एसी की वरिष्ठता नवदीप सिंह (एसएस-44448ए), एओसी के नीचे, जितेन्द्र कुमार (एसएस-44453एल), आर्टी की वरिष्ठता शिवेन्द्र सिंह (एसएस-44452एच), एविएशन के नीचे, अजय कुमार (एसएस-44460एफ), एसी की वरिष्ठता ललित कुमार शर्मा (एसएस-44458के), इन्फैन्ट्री के नीचे और खुम्लीयन (एसएस-44485एन), इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता रणधीर कुमार (एसएस-44484एल), एविएशन के नीचे, प्रकाशित किये जायें, जिनके नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को प्रकाशित हो चुके हैं।

नीरज कुमार
मेजर

सहायक सेना सचिव-8बी

सेना शाखा

सं. 477, दिनांक 23 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष यथा संशोधित थल सेना अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

मोहित मित्तल (एमआर-09224एफ), एएमसी, 10 सितम्बर 2011

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मासं)

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

सं. 478, दिनांक 23 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एमएफ/1506/डीईएस/अनु-I/03 दिनांक 03 जनवरी 2012 एवं एमएफ/1822/डीईएस/अनु-IV/03 दिनांक 09 मई 2012 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा, नौसेना आयुध निरीक्षण, संभारिकी, एविएशन/ऑब्जर्वर, संग्रामिय), शिक्षा शाखा, अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा), वैद्युत शाखा (सामान्य शाखा), वैद्युत शाखा (पनडुब्बी शाखा) एवं अभियांत्रिक शाखा (नौसेना पोतशिल्प)-जुलाई 2009 में सीधी भर्ती योजना/विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-लेफ्ट के रैंक में परखाधीन

सीधी भर्ती योजना

कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा)

सुजीत जी, हिरेमाथ (06499डब्ल्यू), अस्थायी, 06 जुलाई 2009

लखानी धवल प्रफुलचन्द्रा (06500वाई), अस्थायी, 06 जुलाई

2009

- अमित शर्मा (06501जैड), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- हर्ष नडिंग एल जी (06502ए), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- विवेक कुमार सिंह (06504एफ), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- जगरूप सिंह स्योकंद (06505एच), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- सोलैमलै पेरियाराज (06506के), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- अमन चावला (06507एन), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- आदित्य श्याम (06509टी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- निशांत कुमार सिन्हा (06511वाई), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- निखिल कुलकर्णी (06512जैड), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- हरिन्द्र सिंह (06515एफ), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- कार्यकारी शाखा (नौसेना आयुध निरीक्षण)
- अथोकपम दीपक कुमार (06526एफ), स्थायी, 06 जुलाई 2009
- सोमसुन्दरम एसपी (06527एच), स्थायी, 06 जुलाई 2009
- मनकनवर सिंह (06528के), स्थायी, 06 जुलाई 2009
- अविनाश राजेन्द्रन (06529एन), स्थायी, 06 जुलाई 2009
- बिपुल कुमार चंदा (06530आर), स्थायी, 06 जुलाई 2009
- जे आर सुरेश (06531टी), स्थायी, 06 जुलाई 2009
- काली वैकट रामा रेड्डी (06532डब्ल्यू), स्थायी, 06 जुलाई 2009
- कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैडर)
- मीरा शाह (06516एच), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- वरुण प्रकाश राठी (06517के), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- अखिल शर्मा (06518एन), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- देविना सान्याल (06519आर), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- लक्ष्मी शुक्ला (06520टी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- तनिषा चक्रवर्ती (06521डब्ल्यू), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- प्रियंका चौधरी (06522वाई), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- राहुल कृष्ण आर (06523जैड), अस्थायी, 25 जुलाई 2009
- मेघा गुप्ता (06524ए), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- अविनाश बथवाल (06525बी), अस्थायी, 27 जुलाई 2009
- कार्यकारी शाखा (एविएशन/ऑब्जर्वर)
- अभिषेक सिंह (06533वाई), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- कुलजिन्द्र सिंह विर्क (06534जैड), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
- पवन कुमार यादव (06535ए), अस्थायी, 06 जुलाई 2009

श्रीधर रंगनाथन (06536बी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	अभियांत्रिक शाखा (नौसेना पोतशिल्प)
मिथुन एकनाथ गवाडे (06537एफ), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	सुरेश सिंह (42965वाई), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
निशा कुमारी (06539के), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	विशाक एस (42966जैड), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
सन्धी जैशवाल (06540एन), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	यलाला शिवा प्रसाद (42967ए), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
दियोसथली प्रेरणा प्रवीण (06541आर), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना
कार्यकारी शाखा (संगीतज्ञ)	अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा)
जेफी इपेन सी (06542टी), स्थायी, 06 जुलाई 2009	हरदीप सिंह (42975डब्ल्यू), अस्थायी, 10 जुलाई 2009
शिक्षा शाखा (स्थायी)	आशिष कुमार तरेरिया (42976वाई), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
के एम प्रकाधीस्वरण (70606टी), स्थायी, 06 जुलाई 2009	मुनीष कुमार (42977जैड), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
मनीष चौधरी (70607डब्ल्यू), स्थायी, 26 जुलाई 2009	देवेन्द्र शर्मा (42978ए), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
सरीन पी एम (70608वाई), स्थायी, 06 जुलाई 2009	हरप्रीत सिंह (42980एफ), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
देबाशीष जेना (70609जैड), स्थायी, 06 जुलाई 2009	विजय प्रताप सिंह (42982के), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
रविकान्त शुक्ला (70610ए), स्थायी, 06 जुलाई 2009	अभिजीत मोहन्ती (42983एन), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
संदीप सिंह विर्क (70611बी), स्थायी, 14 जुलाई 2009	सौरभ दीप सिंह (42984आर), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
अमित भलेरॉ (70612एफ), स्थायी, 06 जुलाई 2009	प्रणव गोयल (42985टी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
शोभित खन्ना (70613एच), स्थायी, 06 जुलाई 2009	सौरभ त्यागी (42987वाई), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
दीपक आर सिंह (70614के), स्थायी, 06 जुलाई 2009	मुनीष बंसल (42988जैड), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
दीपक एनवी (70615एन), स्थायी, 06 जुलाई 2009	वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा)
सैयद मोइन बसहा (70616आर), स्थायी, 06 जुलाई 2009	गौतम अनेजा (52468डब्ल्यू), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
शालीमाथ सुरजकुमार मल्लेया (70617टी), स्थायी, 20 जुलाई 2009	अभिषेक कुमार सिंह (52469वाई), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
परिचय कालरा (70618डब्ल्यू), स्थायी, 06 जुलाई 2009	निखिल कंदपाल (52470जैड), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
शिक्षा शाखा (अस्थायी)	अकिप हुसैन (52471ए), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
श्वेता पराशर (70619वाई), स्थायी, 19 जुलाई 2009	धनन्जय कुमार प्रसाद (52472बी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा)	केतन पहवा (52473एफ), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
तुषार सारस्वत (42962आर), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	राजीव कुमार साहा (52474एच), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
अमन साहनी (42963टी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	जीवन जोशी (52475के), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
अंकित शर्मा (42964डब्ल्यू), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	मनीष कुमार तिवारी (52476एन), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
वैद्युत शाखा (सामान्य शाखा)	सुखजीत सिंह हुंदल (52477आर), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
निकन्ती सत्य किरीत (52463एच), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	सतीश कुमार एस (52478टी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
आश्वीन एनसी (52464के), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	आशीष कुमार जैशवाल (52479डब्ल्यू), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
अभिनव उपाध्याय (52465एन), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	उज्ज्वल कुमार (52480वाई), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
रोहित धीर (52467टी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	राहुल गुप्ता (52481जैड), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
वैद्युत शाखा (पनडुब्बी)	
आशिष मोहन चौबे (52461बी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	
पुनित भट्ट आर (52462एफ), अस्थायी, 06 जुलाई 2009	

दीक्षित मनन (52482ए), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
जेरित अब्राहम (52484एफ), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
शेफी (52485एच), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
आदित्य सिंह यादव (52486के), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
अब्दुल शोयेब खान (52487एन), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
राहुल कुशवाह (52488आर), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
हैमन्त कौशिक (52489टी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
रवि शंकर सिंह (52490डब्ल्यू), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
शंभाग विनय गुरुदास (52491वाई), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
शुभम शर्मा (52492जेड), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
धृत अरोरा (52493ए), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
रोहित रविन्द्रनाथ (52494बी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
आदित्य सचदेवा (52495एफ), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
जेकसन बाबू (52496एच), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
विभव त्रिवेदी (52497के), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
प्रितस चन्द एस पी (52498एन), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
पांड्या ध्रुवल कनैयालाल (52499आर), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
गगनदीप वाधवा (52500टी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
रनबीर सिंह (52501डब्ल्यू), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
श्याम अनुभव शर्मा (52502वाई), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
अभिषेक मेहता (52503जेड), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
दिलजीत बरीयाना (52504ए), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
शरद जोशी (52505बी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
देबज्योति बनर्जी (52506एफ), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
अहीष गौर (52507एच), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
राकेश कुमार (52508के), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
अभिनव दास (52509एन), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
रोहित राय (52510आर), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
सुमित कौल (52511टी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
संदीप शशिधरन (52512डब्ल्यू), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
नंदागिरी कृष्ण तेजा (52513वाई), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
साहिल वर्मा (52514जेड), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
रोहित सुनिल नायर (52515ए), अस्थायी, 06 जुलाई 2009

कृष्ण कुमार रंगरा (52516बी), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
विकी शर्मा (52517एफ), अस्थायी, 06 जुलाई 2009
राजेश राजगोपालन
कमांडर
जे डी एम पी आर
(ओ आई एंड आर)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 479, दिनांक 23 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रु. 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) + रु. 5,400/- ग्रेड पे रुपये के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (युप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2010एबी1172 रैनक पडगिल, एआरडीई, पुणे, 19 मई 2010

2010एबी1260 संतोष कुमार प्रसाद, सीवीआरडीई, चैन्नई, 10 नवम्बर 2010

2010एबी1216 अनुभव अदक, डीएलआरएल, हैदराबाद, 30 दिसम्बर 2010

2010एबी1102 निधि वर्मा, डीएलआरएल, हैदराबाद, 19 मई 2010

2008एबी1294 ओमकार पी, डीएलआरएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2009एबी1609 असफर रफी, डीआरडीएल, हैदराबाद, 01 दिसम्बर 2009

2010एबी1163 नरेन्द्र कुमार, डीआरडीएल, हैदराबाद, 19 मई 2010

2010एबी1011 जी एस कृष्ण प्रसाद, डीआरडीएल, हैदराबाद, 19 फरवरी 2010

2009एबी1671 भारतन आर डी, जीटीआरई, बैंगलौर, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1664 देव प्रकाश शर्मा, आईआरडीई, देहरादून, 01 दिसम्बर 2009

2010एबी1006 मो. मुस्ताकिम, एलआरडीई, बैंगलौर, 22 फरवरी 2010

2011एबी1007 उषासी मंडल, एनएमआरएल, अंबरनाथ, 25 अप्रैल 2011

2010एबी1103 रघुराम काकीनाडा, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम, 19 मई 2010

2011एबी1004 अविनाश इक्का, आरएंडडीई (ई), पुणे, 29 अप्रैल 2011

2009एबी1563 नरेश गणधम, आरसीई, हैदराबाद, 01 दिसम्बर 2009
 2010एबी1118 अदित्या भारती, आरसीई, हैदराबाद, 19 मई 2010
 2009एबी1398 ढी रविन्द्र, आरसीई, हैदराबाद, 03 जून 2009
 2009एबी1271 रंजन कुमार चौधरी, आरसीएमए, कानपुर, 03 जून 2009
 2010एबी1259 लक्ष्मण, स्पीक, दिल्ली, 26 नवम्बर 2010

स्मिता आहूजा
उप निदेशक/कार्मिक (एस-1)

सं. 480, दिनांक 25 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को, जिन्हें उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में स्थायी कमीशन एवं ब्रेवेट (परिवीक्षा पर) प्रदान किया गया था, उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से स्थायी करने की मंजूरी प्रदान करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

फ्ला अफसर जी विष्णु प्रसाद (31115), एफ (एन)

फ्ला अफसर सत्येन्द्र कुमार यादव (31117), एफ (एन)

फ्ला अफसर मयंक गोस्वामी (31176), एफ (एन)

--स्थायी करने की मंजूरी 19 जून 2010 से प्रभावी राष्ट्रपति, स्थायी कमीशन प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से स्थायी करने की मंजूरी प्रदान करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

फ्ला अफसर प्रीतपाल सिंह बामराह (31182), प्रशासनिक

फ्ला अफसर प्रियंक पाण्डे (31183), प्रशासनिक

फ्ला अफसर अंशुमान शर्मा (31184), प्रशासनिक

फ्ला अफसर विभोर गौड़ (31185), प्रशासनिक

फ्ला अफसर वेदांत पटनायक (31186), प्रशासनिक

फ्ला अफसर सागर सोनी (31187), प्रशासनिक

फ्ला अफसर दिनेश कुमार (31188), प्रशासनिक

फ्ला अफसर अंकित कुलश्रेष्ठ (31189), प्रशासनिक

फ्ला अफसर राहुल झा (31191), प्रशासनिक

संभारिकी शाखा

फ्ला अफसर ए के पांडे (31192), संभारिकी

फ्ला अफसर सन्नी नैन (31193), संभारिकी

फ्ला अफसर कुलदीप सिंह तियोतिया (31194), संभारिकी

फ्ला अफसर सिद्धार्थ सिंह (31195), संभारिकी

फ्ला अफसर गजानन हरलीकर (31196), संभारिकी

फ्ला अफसर संजय कुमार सिंह (31197), संभारिकी

फ्ला अफसर संजय जैकब (31198), संभारिकी

फ्ला अफसर द्युमन सिंह (31199), संभारिकी

फ्ला अफसर आफताब खान (31200), संभारिकी

फ्ला अफसर राकेश शर्मा (31201), संभारिकी

शिक्षा शाखा

फ्ला अफसर प्रशान्त गुप्ता (31202), शिक्षा

फ्ला अफसर अवनिन्द्र नाथ ठाकुर (31203), शिक्षा

फ्ला अफसर सर्वेश कुमार पाण्डे (31204), शिक्षा

फ्ला अफसर सर्वेश कुमार मिश्रा (31205), शिक्षा

मौसम विज्ञान शाखा

फ्ला अफसर मदन गोपाल (30680), मौसम विज्ञान

--स्थायी करने की मंजूरी 19 जून 2010 से प्रभावी

राष्ट्रपति, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से स्थायी करने की मंजूरी प्रदान करते हैं :--

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्ला अफसर अनुपम चौधरी (31234), एफ (पी)

फ्ला अफसर भुपाली वाडके (31235), एफ (पी)

फ्ला अफसर राखी भंडारी (31236), एफ (पी)

--19 जून 2010 से प्रभावी

फ्ला अफसर के श्रीधर (31206), प्रशासनिक

फ्ला अफसर अजय कुमार चतुर्वेदी (31207), प्रशासनिक

फ्ला अफसर देविन्द्र पाल सिंह पुनिया (31208), प्रशासनिक

--19 जून 2010 से प्रभावी

राष्ट्रपति, अल्पकालिक कमीशन (परिवीक्षा पर) प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से स्थायी करने की मंजूरी प्रदान करते हैं :--

प्रशासनिक शाखा

फ्ला अफसर निधि नरियाल (31237)

फ्ला अफसर कुंवर ज्योति (31238)

फ्ला अफसर अधिश्री अग्रवाल (31239)

फ्ला अफसर शालिनी मद्दीराला (31240)	वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी/मैकेनिकल) शाखा
फ्ला अफसर जसवीन कौर साहनी (31241)	फ्ला अफसर नुपुर (31403), एई (एल)
फ्ला अफसर शिवमजीत कौर संधु (31242)	फ्ला अफसर रीतिका बजाज (31393), एई (एल)
फ्ला अफसर विजय लक्ष्मी सेन (31244)	फ्ला अफसर शक्तिवेल के (31362), एई (एम)
फ्ला अफसर चंदन यादव (31245)	फ्ला अफसर गुरु प्रसाद (31374), एई (एल)
फ्ला अफसर शालिका शर्मा (31246)	फ्ला अफसर सत्यदीप शर्मा (31375), एई (एल)
फ्ला अफसर सोनिया सांगवान (31247)	फ्ला अफसर अश्वथ आर महादेव (31407), एई (एल), फ्ला अफसर अदिति जैन (31381), एई (एम)
फ्ला अफसर बिंदु (31248)	फ्ला अफसर महाबीर सिंह दानू (31367), एई (एम)
फ्ला अफसर स्वाति सिरोही (31249)	फ्ला अफसर कोर्डे विद्यासागर (31366), एई (एम)
फ्ला अफसर दिव्या तिवारी (31250)	फ्ला अफसर विशाल जैन (31379), एई (एल)
फ्ला अफसर हिमांशी बर्तवाल (31251)	फ्ला अफसर मिनी दराल (31398), एई (एल)
फ्ला अफसर सुचिन्द्रा (31252)	फ्ला अफसर साध्या देवी (31396), एई (एल)
फ्ला अफसर मंजू कुमारी (31253)	फ्ला अफसर सूर्यांशु पुगला (31378), एई (एल)
फ्ला अफसर कबल प्रीत बक्शी (31254)	फ्ला अफसर अक्षय मिश्रा (31370), एई (एल)
संभारिकी शाखा	
फ्ला अफसर हरप्रीत कौर परमार (31255)	फ्ला अफसर बोली श्रीवास्तव (31390), एई (एल)
फ्ला अफसर रेशु चौधरी (31256)	फ्ला अफसर विपिन रक्कानाथ (31368), एई (एल)
फ्ला अफसर शीतल त्रिपाठी (31257)	फ्ला अफसर विनेश एन (31361), एई (एम)
फ्ला अफसर मोनिका भारन (31258)	फ्ला अफसर स्वाति गुप्ता (31397), एई (एल)
फ्ला अफसर तान्या सिंह (31259)	फ्ला अफसर कंचन कुमारी (31387), एई (एल)
लेखा शाखा	
फ्ला अफसर के देवा नंदिनी (31260)	फ्ला अफसर ज्योति अग्रवाल (31394), एई (एल)
फ्ला अफसर शिल्पा शर्मा (31261)	फ्ला अफसर मोहन प्रसाद आर (31358), एई (एम)
फ्ला अफसर उर्वशी राय (31262)	फ्ला अफसर एम पी मनु भारद्वाज (31369), एई (एल)
फ्ला अफसर प्राची सरीन (31263)	फ्ला अफसर पार्ल चावला (31388), एई (एल)
फ्ला अफसर पूजा नेगी (31264)	फ्ला अफसर श्याम पॉल एडवर्ड (31380), एई (एल)
फ्ला अफसर आनंद दीप कौर (31265)	फ्ला अफसर अनिता कुमारी (31392), एई (एल)
फ्ला अफसर आराधना बेदी (31266)	फ्ला अफसर प्रदीप यी नायर (31359), एई (एम)
शिक्षा शाखा	
फ्ला अफसर एवलिन दुड़ु (31267)	फ्ला अफसर अपूर्व चन्द्रा (31406), एई (एम)
मौसम विज्ञान शाखा	
फ्ला अफसर मीनाक्षी देवी (30681)	फ्ला अफसर पीटर पाल्मर (31371), एई (एल)
फ्ला अफसर केतकी देशमुख (30682)	फ्ला अफसर शर्मिष्ठा जोशी (31395), एई (एल)
फ्ला अफसर वंदना चौधरी (30683)	फ्ला अफसर अनुषा राघव (31382), एई (एम)
--स्थायी करने की मंजूरी 19 जून 2010 से प्रभावी	
	फ्ला अफसर अंकिता ठकराल (31384), एई (एल)
	फ्ला अफसर इना यादव (31400), एई (एल)
	फ्ला अफसर पवार राहुल डागा (31376), एई (एल)
	फ्ला अफसर प्रेरणा पठानिया (31389), एई (एल)

फला अफसर गैरव कुमार (31365), एई (एम)	फला अफसर आशीष हंगुंड (31218), एफ (पी)
फला अफसर निखिल देव (31373), एई (एल)	फला अफसर एकलव्य सिंह (31219), एफ (पी)
फला अफसर इशानी तंखा (31402), एई (एल)	फला अफसर विशाल कुमार (31210), एफ (एन)
फला अफसर शाह मोहम्मद फैजल (31377), एई (एल)	--19 जून 10 से प्रभावी
फला अफसर रहानी सिंह (31386), एई (एल)	उड़ान (नेवीगेटर) शाखा
फला अफसर अभिषेक सिंह (31372), एई (एल)	फला अफसर विशाल कुमार (31210), एफ (एन)
फला अफसर मौरी येलोकर (31053), एई (एल)	--19 जून 10 से प्रभावी
फला अफसर विवेक एन (31364), एई (एम)	तरूण खरे विंग कमांडर
फला अफसर पृथ्वीराजन यू (31360), एई (एम)	संयुक्त निदेशक कार्मिक अफसर-3(डी)
फला अफसर लीनू (31385), एई (एल)	-----
फला अफसर दर्शन वाई जी (31363), एई (एम)	सेना सचिव शाखा
स्थायी करने के आदेश 30 जून 11 से प्रभावी	सं. 481, दिनांक 25 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--
प्रशासनिक शाखा	थल सेना मुख्यालय
फला अफसर राकेश कुमार पाण्डे (31220), प्रशासनिक	थल सेनाध्यक्ष के पद पर
फला अफसर संदीप के बालाकृष्णन (31221), प्रशासनिक	(आईसी-25816) ले जनरल बिक्रम सिंह, पीवीएसएम, युवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी, सिखलाई, 01 जून 2012
फला अफसर प्रवीन कुमार (31224), प्रशासनिक	स्थायी कमीशन
फला अफसर अर्पित नेगी (31225), प्रशासनिक	जनरल के मूल रैंक में
फला अफसर प्रभाकर भट्ट (31226), प्रशासनिक	(आईसी-25816) ले जनरल बिक्रम सिंह, पीवीएसएम, युवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी, सिखलाई, 01 जून 2012
फला अफसर तलविंदर सिंह रीन (31227), प्रशासनिक	ए चंद्रशेखर निदेशक/एमएस (एक्स)
फला अफसर नवीन कुमार यादव (31230), प्रशासनिक	-----
फला अफसर शुभम मिश्रा (31231), प्रशासनिक	थल सेना शाखा
संभारिकी शाखा	सं. 482, दिनांक 25 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं:--
फला अफसर अभिमन्तु राठी (31232), संभारिकी	नियमित सेना
फला अफसर थोकचम बसाबता कुमार (31233), संभारिकी	स्थायी कमीशन
स्थायी करने की मंजूरी 19 जून 2010 से प्रभावी	(सेना चिकित्सा कोर)
उड़ान (पायलट) शाखा	ले कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर
फला अफसर संदीप खोखर (31211), एफ (पी)	(एमआर-05486ए) ले कर्नल एन के राठौर, 12 जुलाई 2011
फला अफसर अक्षत ढूबे (31212), एफ (पी)	यश पांडे ब्रिगे उप महानिदेशक ससेचिसे (मासं)
फला अफसर अमित सेठी (31213), एफ (पी)	
फला अफसर राघवेन्द्र सिंह (31214), एफ (पी)	
फला अफसर वर्णेन डेसमंड कीने (31215), एफ (पी)	
फला अफसर विनोद राज मोहन (31216), एफ (पी)	
फला अफसर रविन्द्र सिंधु (31217), एफ (पी)	

सेना शाखा

सं. 483, दिनांक 26 अक्टूबर 2012—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

- (आईसी-30918पी) वी सी चौधरी, सिंगल्स, 16 दिसम्बर 2004
- (आईसी-41812एच) कुलदीप सिंह, ईएमई, 17 दिसम्बर 2009
- (आईसी-41813एल) के एस लोटा, ईएमई, 17 दिसम्बर 2009
- (आईसी-42509एन) पी के ननगिया, एओसी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42629एम) वाई मैत्री, एएडी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42961एच) आर ठाकुर, एओसी, 08 जून 2011
- (आईसी-43100वाई) ए एस पवार, एओसी, 08 जून 2011
- (आईसी-43322एन) वाई समनोल, मैक इन्फैन्ट्री, 14 दिसम्बर 2011
- (आईसी-43533डब्ल्यू) एन एन बाजपेयी, ईएमई, 14 दिसम्बर 2011
- (आईसी-43629वाई) पी वी शिवाराम, ईएमई, 18 दिसम्बर 2009
- (आईसी-45292ए) वी एस राव, मैक इन्फैन्ट्री, 09 नवम्बर 2010
- (आईसी-45333वाई) एच एस झल्ला, ईएमई, 09 नवम्बर 2010
- (आईसी-45471ए) सुनील दत्त, ईएमई, 07 नवम्बर 2011
- (आईसी-45508डब्ल्यू) के एस बासुदेवन, एओसी, 07 नवम्बर 2011
- (आईसी-45521ए) ऑंकार शर्मा, आर्टी, 07 नवम्बर 2011
- (आईसी-45527एफ) संदीप मित्तल, गार्ड्स, 22 अप्रैल 2012
- (आईसी-45536एच) राजीव पाण्डे, एसी, 22 अप्रैल 2012
- (आईसी-45538एन) जे एन राय, इन्फैन्ट्री, 22 अप्रैल 2012
- (आईसी-45570एच) टी एस परमार, ईएमई, 22 अप्रैल 2012
- (आईसी-45572एन) अखिल शर्मा, इन्फैन्ट्री, 22 अप्रैल 2012
- (आईसी-45581पी) आर के मिश्रा, इन्फैन्ट्री, 22 अप्रैल 2012
- (आईसी-45588वाई) एन के सुबेदार, एसी, 22 अप्रैल 2012
- (आईसी-45590डब्ल्यू) मनमोहन सिंह, इंट, 22 अप्रैल 2012
- (आईसी-45597ए) एस शुक्ला, सिंगल्स, 22 अप्रैल 2012
- (आईसी-47497एन) वाई एस राणा, ईएमई, 19 दिसम्बर 2011
- (ची-00400एम) दुश्यन्त बाली, आरबीसी, 10 फरवरी 2012

(ची-00412एफ) आर के दहिया, आरबीसी, 26 नवम्बर 2010

(ची-00415पी) एस एस जामवाल, आर ची सी, 08 मार्च 2011

(आईसी-42130के) एल एस रमालू, इंट, 09 जून 2010

(आईसी-42964डब्ल्यू) एस एन रंधावा, एसी, 08 जून 2011

(आईसी-43206एल) के एम उपाध्याय, ईईसी, 08 जून 2011

(आईसी-43214के) पी एन सुब्रामन्यम्, ईईसी, 08 जून 2011

(आईसी-43488पी) ओ के पवार, सिंगल्स, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-43541पी) एस सी प्रसाद, सिंगल्स, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-45563एम) पी एन मेनन, एसी, 22 अप्रैल 2012

(आईसी-45573डब्ल्यू) नीरज झा, इन्फैन्ट्री, 22 अप्रैल 2012

(आईसी-45574वाई) ए आर देशपाण्डे, गार्ड्स, 22 अप्रैल 2012

(आईसी-45586एन) एस मलहोत्रा, इन्फैन्ट्री, 22 अप्रैल 2012

(आईसी-45595पी) विवेक जोशी, एएडी, 22 अप्रैल 2012

(आईसी-47530ए) यू एस वर्मा, सिंगल्स, 19 दिसम्बर 2011

(आईसी-44019वाई) वी बंदोपाध्याय, एओसी, 14 जून 2012

(आईसी-43240एल) अकुथन कुट्टी के एन, इन्फैन्ट्री, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-43380एक्स) जे के मेनन, इन्फैन्ट्री, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-43490एम) राजा शर्मा, इंजीनियर्स, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-43742एन) नरेश राणा, इन्फैन्ट्री, 14 जून 2012

(आईसी-43795एम) ए मुरुगेशन, इन्फैन्ट्री, 14 जून 2012

(आईसी-43799एच) वी के पटपटिया, इन्फैन्ट्री, 14 जून 2012

(आईसी-43818एच) आर एन पाण्डे, आर्टी, 14 जून 2012

(आईसी-43871एन) एस के जेना, इन्फैन्ट्री, 14 जून 2012

(आईसी-43885एन) एन के सिंह, एएससी, 14 जून 2012

(आईसी-43948एल) डी चौधरी, इन्फैन्ट्री, 14 जून 2012

(आईसी-43970डब्ल्यू) राज नायक सिंह, एसी, 14 जून 2012

(आईसी-44026पी) प्रकाश किसिरसागर, इंजीनियर्स, 14 जून 2010

(आईसी-44958एफ) ए के गुप्ता, इंजीनियर्स, 13 जून 2011

(आईसी-45389एल) गुरकृत सिंह, ईएमई, 20 अप्रैल 2011

(आईसी-47489पी) एम के चौहान, इंजीनियर्स, 19 दिसम्बर 2011

(आईसी-47537के) ए के गुप्ता, इंजीनियर्स, 19 दिसम्बर 2011

(आईसी-43898एल) आर एस हंस, ईएमई, 14 जून 2012

(आईसी-43967डब्ल्यू) के डी अथले, आर्टी, 14 जून 2012
 (आईसी-48011के) एस सिहोकर, इंजीनियर, 15 जून 2012
 (आईसी-43727वाई) बहादुर सिंह, एओसी, 14 जून 2012
 (आईसी-43899एन) एच एम महेश्वरी, इन्फैन्ट्री, 14 जून 2012
 (वी-00410डब्ल्यू) एस के दीक्षित, आर वी सी, 16 मई 2012
 (वी-00424डब्ल्यू) अरुण शर्मा, आरवीसी, 16 मई 2012
 (वी-00428एम) ए के पुरी, आरवीसी, 16 मई 2012

(एससी-00500) कुलदीप कुमार भनोट, आर्टी
 (एससी-00501) वी जी सुर्या प्रभा, एएससी

--10 दिसम्बर 2011

प्रभात रॉस
 उप निदेशक
 एम एस-8सी

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

(टीए-41947) राकेश बहल, टीए (विभागीय), 28 जुलाई 2009
 (टीए-42020) प्रदीप कुमार, टीए (विभागीय), 18 नवम्बर 2011
 (टीए-42056) एमपी सिंह, टीए (विभागीय), 18 नवम्बर 2011
 (टीए-42417) डी एस चौहान, टीए (गैर विभागीय), 02 अप्रैल 2010
 (टीए-42372) नवीन शर्मा, टीए (गैर विभागीय), 21 अप्रैल 2010
 (टीए-42192) राकेश सिंह, टीए (गैर विभागीय), 21 अक्टूबर 2011

टी के दास
 उप निदेशक
 एमएस-8ए

सेना शाखा

सं. 484, दिनांक 26 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:-

नियमित सेना

स्पेशल कमीशन

कप्तान से मेजर

(एससी-00494) राम गोपाल सिंह, एएससी
 (एससी-00495) जितेन्द्र सिंह राणा, ईएमई
 (एससी-00496) पंछी राम, एओसी
 (एससी-00497) सत पॉल, एओसी
 (एससी-00498) लक्ष्मण सिंह, एओसी
 (एससी-00499) श्री विवेक कुमार, आर्टी

(एससी-00500) कुलदीप कुमार भनोट, आर्टी

(एससी-00501) वी जी सुर्या प्रभा, एएससी

--10 दिसम्बर 2011

प्रभात रॉस
 उप निदेशक
 एम एस-8सी

सेना शाखा

सं. 485, दिनांक 26 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

रेखा शर्मा (एमएस-15628ए), (एमआर-09326एक्स), एएमसी, 06 सितम्बर 2011

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशनाधीन रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान के पद पर

इचेता सिंह राठोड़, (एमआर-09182ए) एएमसी, 26 फरवरी 2012

पियुष खाटकर, (एमआर-09190वाई) एएमसी, 26 फरवरी 2012

कम्पर्श ठाकुर, (एमआर-09191एफ) एएमसी, 26 फरवरी 2012

रघुत चावला, (एमआर-09194पी) एएमसी, 26 फरवरी 2012

अरुणचंद आर, (एमआर-09196ए) एएमसी, 26 फरवरी 2012

राजिव कौल, (एमआर-09199एन) एएमसी, 26 फरवरी 2012

अन्विता सिन्हा, (एमआर-09162एम) एएमसी, 26 फरवरी 2012

दीपिका फोगाट, (एमआर-09168एन) एएमसी, 26 फरवरी 2012

अपुर्व सक्सेना, (एमआर-09169डब्ल्यू) एएमसी, 26 फरवरी 2012

अन्वित राज सिंह, (एमआर-09175के) एएमसी, 26 फरवरी 2012

गौरव पठानिया, (एमआर-09181एक्स) एएमसी, 26 फरवरी 2012

मधुकर उपाध्याय, (एमआर-09183एच) एएमसी, 26 फरवरी 2012

सचिन चौरसिया (एमएस-15272एक्स), (एमआर-09145एम), एएमसी, 20 फरवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जुलाई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

वैभव श्रीवास्तव (एमएस-15565एच), (एमआर-09334डब्ल्यू), एएमसी, 30 जुलाई 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जुलाई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

प्रविन कुमार यादव (एमएस-15529एक्स), (एमआर-09333एन), एएमसी, 06 फरवरी 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18 अक्टूबर 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांड
ब्रिगे

उप महानिदेशक संसेचिसे (मासं)

थल सेना शाखा

सं. 486, दिनांक 29 अक्टूबर 2012—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:

स्थायी थल सेना

सेना चिकित्सा कोर

स्थायी नायब सूबेदार (एक्सरे असिस्टेन्ट)

हवलदार गोनीमदातला एस रामामूर्ति (सं. 13981084एम अब जेसी-698534डब्ल्यू), 05 मई 2012

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 14 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

हवलदार मनोज पी सी (सं. 13988780एम अब जेसी-697487एक्स), 08 मार्च 2010

हवलदार अजय कुमार (सं. 13989115डब्ल्यू अब जेसी-697520के), 17 अप्रैल 2010

हवलदार मनोज पी वी (सं. 13989137पी अब जेसी-697526एल), 12 अप्रैल 2010

हवलदार जी वेंकट नरायण रेहडी (सं. 13989435एल अब जेसी-697470के), 26 फरवरी 2010

हवलदार अहेमना (सं. 13989540एफ अब जेसी-697553पी), 05 मई 2010

हवलदार उमेश कुमार (सं. 13989818एक्स अब जेसी-697805डब्ल्यू), 06 नवम्बर 2010

हवलदार रमाकान्ता दास (सं. 13990201एन अब जेसी-697488ए), 16 मार्च 2010

हवलदार रहाते राजेश केशव (सं. 13991741वाई अब जेसी-697471एम), 23 फरवरी 2010

हवलदार वेंकट रमन दब्बडा (सं. 13992054पी अब जेसी-697472पी), 03 मार्च 2010

हवलदार राकेश कुमार (सं. 13992859एम अब जेसी-6977759एम), 27 अक्टूबर 2010

हवलदार काले दारा सिंह राम धन (सं. 13988333एच अब जेसी-697473एक्स), 25 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 14 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार जी साजीमन (सं. 13991175के अब जेसी-697474ए), 03 मार्च 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार जितेन्द्र कुमार सिंह (सं. 13989368एल अब जेसी-697527एन), 19 अप्रैल 2010

हवलदार अमेन्द्र नाथ राय (सं. 13989745डब्ल्यू अब जेसी-697535एम), 04 मई 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अरिवजहगन एल (सं. 13990707एम अब जेसी-697583एम), 09 जून 2010

हवलदार रवी ए (सं. 13993668के अब जेसी-697584पी), 23 जून 2010

हवलदार विनोद कुमार (सं. 13993538एफ अब जेसी-698060एन), 03 मई 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अइयप्पन वी एन (सं. 13990905एक्स अब जेसी-698263के), 09 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 12 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार वरिन्दर सिंह (सं. 13994342ए अब जेसी-698061एच), 06 मई 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 12 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार शिरके दत्ताराम शान्ता राम (सं. 13992028एन अब जेसी-697672एल), 05 अगस्त 2010

हवलदार भंवर सिंह (सं. 13994672वाई अब जेसी-697673एन), 02 अगस्त 2010

हवलदार अवधेश तिवारी (सं. 13995607एल अब जेसी-697674डब्ल्यू), 02 अगस्त 2010

हवलदार हरजीत पौल (सं. 13996018एफ अब जेसी-697675वाई), 02 अगस्त 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

हवलदार लिंग राज बेहरा (सं. 13996191एल अब जेसी-697712एफ), 06 सितम्बर 2010

हवलदार राजेश टी आर (सं. 13996236ए अब जेसी-697806वाई), 02 नवम्बर 2010

हवलदार सुनील कुमार (सं. 13996310डब्ल्यू अब जेसी-697713के), 01 सितम्बर 2010

हवलदार अनिल कुमार कौन्दल (सं. 13996486एफ अब जेसी-698340एन), 10 दिसम्बर 2011

हवलदार धर्मेंद्र कुमार (सं. 13996694डब्ल्यू अब जेसी-698420एल), 01 सितम्बर 2010

हवलदार राघवेन्द्र प्रसाद (सं. 13996949एल अब जेसी-697714एम), 01 सितम्बर 2010

हवलदार रंजन के आर बोराह (सं. 13997016एच अब जेसी-697807एफ), 11 नवम्बर 2010

हवलदार तरिगोन्डा कुल्लयप्पा (सं. 13997553एन अब जेसी-697715पी), 01 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार इल्ला गोविन्दु (सं. 13997543के अब जेसी-697810एफ), 01 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार अनिल कुमार एस (सं. 13996407एफ अब जेसी-698264एम), 05 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार अरविन्द कुमार (सं. 13988706एल अब जेसी-697856के), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार इरप्पा मीशी (सं. 13988757वाई अब जेसी-697857एम), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार वाकचूरे रावसाहेब हरी भाउ (सं. 13990418एक्स अब जेसी-697868वाई), 10 दिसम्बर 2010

हवलदार सी प्रतापा रेड्डी (सं. 13991478वाई अब जेसी-697858पी), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार खड़क बहादुर थापा (सं. 13991632एम अब जेसी-697864एच), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार संजय कुमार पाण्डेय (सं. 13992307वाई अब जेसी-697859एक्स), 01 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार अक्षय आनन्द (सं. 13994216एन अब जेसी-697882एल), 01 जनवरी 2011

हवलदार संजय कुमार (सं. 13995619ए अब जेसी-697915एल), 14 जनवरी 2011

हवलदार नजीर अहमद गरई (सं. 13991097एक्स अब जेसी-698214एफ), 27 सितम्बर 2010

हवलदार त्रिदिव दास महापात्रा (सं. 13994789एक्स अब जेसी-697883डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

हवलदार प्रवीन कुमार टी जी (सं. 13995885वाई अब जेसी-697884डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

हवलदार हीरा सिंह राना (सं. 13996241एल अब जेसी-697890के), 01 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13996283एक्स अब जेसी-697921वाई), 01 फरवरी 2011

हवलदार पाटिल नितिन विठ्ठल राव (सं. 13991120ए अब जेसी-698067के), 01 फरवरी 2011

हवलदार विनोद सी ए (सं. 13993665डब्ल्यू अब जेसी-697922एफ), 01 फरवरी 2011

हवलदार अर्जुन बजन्त्री (सं. 13993557एम अब जेसी-697965डब्ल्यू), 08 फरवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार तारकेश्वर राव जामी (सं. 13994039वाई अब जेसी-697966वाई), 01 मार्च 2011

हवलदार प्रदीप करमाकर (सं. 13994788पी अब जेसी-697967एफ), 01 मार्च 2011

हवलदार साहितुर रहमान (सं. 13994795एल अब जेसी-697968के), 05 मार्च 2011

हवलदार नेतई चक्रबर्ती (सं. 13994786के अब जेसी-697969एम), 01 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार सुभाश चन्द्र बोस एस (सं. 13995758के अब जेसी-698021एफ), 06 अप्रैल 2011

हवलदार राजकुमार (सं. 13996358के अब जेसी-698266एक्स), 12 नवम्बर 2011

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 13996364एक्स अब जेसी-698022के), 01 अप्रैल 2011

हवलदार प्रमोद एन इ (सं. 13996816पी अब जेसी-698023एम), 02 अप्रैल 2011

हवलदार नरेश कुमार यादव (सं. 13996757एन अब जेसी-698389के), 26 दिसम्बर 2011

हवलदार अनूप खरे (सं. 13996788एन अब जेसी-698024पी), 01 अप्रैल 2011

हवलदार मनीश दिमरी (सं. 13996826वाई अब जेसी-698025एक्स), 01 अप्रैल 2011

हवलदार लक्ष्मी कान्त पारिया (सं. 13996929एक्स अब जेसी-698026ए), 05 अप्रैल 2011

हवलदार सुजीत कुमार सिंह (सं. 13996951एक्स अब जेसी-698027एच), 04 अप्रैल 2011

हवलदार इन्दल सिंह (सं. 13997260एच अब जेसी-698341डब्ल्यू), 15 दिसम्बर 2011
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अनिल कुमार यादव (सं. 13997681एल अब जेसी-698055पी), 01 मई 2011

हवलदार सूरज सिंह (सं. 13998338पी अब जेसी-698112एल), 25 मई 2011

हवलदार रक्तिम फुकन (सं. 13998439एच अब जेसी-698113एन), 25 मई 2011
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार स्वाधीन कुमार पारीक (सं. 13998477वाई अब जेसी-698114डब्ल्यू), 26 जून 2011
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार बलवन्त सिंह यादव (सं. 13998476डब्ल्यू अब जेसी-698179के), 01 जून 2011
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार मो. जोहिरुल आलम (सं. 13997514पी अब जेसी-698308वाई), 17 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 28 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अजीथ कुमार पी बी (सं. 13998677पी अब जेसी-698146वाई), 02 जुलाई 2011

हवलदार सन्दीप कुमार तिवारी (सं. 13998719डब्ल्यू अब जेसी-698126एल), 01 जुलाई 2011
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार वाई रविन्द्रनाथ रेडी (सं. 13998804वाई अब जेसी-698152एम), 01 अगस्त 2011

हवलदार शीतला प्रसाद मिश्रा (सं. 13998374ए अब जेसी-698535वाई), 16 फरवरी 2012
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13997767के अब जेसी-698426एम), 06 फरवरी 2012
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार शिव सिंह (सं. 13996936एन अब जेसी-698229एच), 14 नवम्बर 2011
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अजय कुमार (सं. 13995624एल अब जेसी-698506के), 01 अप्रैल 2012
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 14 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार सुख जीत सिंह (सं. 13998949के अब जेसी-698507एम), 03 अप्रैल 2012
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार करुपपहिया एस (सं. 13998977डब्ल्यू अब जेसी-698535वाई), 01 मई 2012
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जायेगी)

सेना शाखा

सं. 487, दिनांक 29 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 27.06.2011 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना

अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

मंजुनाथ एस आर (एमएस-15796वाई), (एमआर-09322एफ), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 सितम्बर 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

रितुराज कोटेकी (एमएस-16049ए), (एमआर-09323के), एएमसी 26 फरवरी 2009

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 26 अगस्त 2008 से हो जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशनाधिन रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सिंह स्मिता साहिब सिंह (एमएस-16042डब्ल्यू), (एमआर-09324एम), एएमसी, 26 फरवरी 2009

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जुलाई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

रेखा शर्मा (एमएस-15628ए), (एमआर-09326एक्स), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

दिपक सिंह (एमएस-15708एक्स), (एमआर-09329एल), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

निर्मला वेनुगोपाल (एमएस-15853पी), (एमआर-09330ए), एएमसी, 12 अगस्त 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 जनवरी 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेंट के पद पर

प्रविन कुमार यादव (एमएस-15529एक्स), (एमआर-09333एन), एएमसी, 26 मार्च 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

वैभव श्रीवास्तव (एमएस-15565एच), (एमआर-09334डब्ल्यू), एएमसी, 31 अगस्त 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 25 जून 2010 से सेना चिकित्सा कार से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सचिन चौरसिया (एमएस-15272एक्स), (एमआर-09145एम), एएमसी, 13 मार्च 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 मई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांडे
ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मासं)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 488, दिनांक 29 अक्टूबर 2012—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

जी आई वाधवा, को मुख्य संनिर्माण इंजीनियर, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 01 सितम्बर 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 37,400--67,000/- (पीबी 4) एवं ग्रेड पे रु. 8,900/- पर

विपिन कुमार जैन, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 28 मई 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

डी वाई वसन्त, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 30 मई 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

आर शेषाद्री, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 28 मई 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

एच वी सोमाशेखर, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 28 मई 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

गजेन्द्र सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 07 जून 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

जी एन प्रसाद को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डीआरओ में 01 जनवरी 2012 (मध्याह्न) से पे बैंड 3 में रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर

एम आर कात्यायिनी, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 30 मार्च 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

अनिल कुमार, लेखा अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 09 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

सुशीला गणेश, निजी सचिव 'ए', ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 20 सितम्बर 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

पदमावती सुकुमारन, निजी सचिव 'ए', ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 09 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- (पीबी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर

बी पी सिंह
उपनिदेशक (कार्मिक एए)

थल सेना शाखा

सं. 489, दिनांक 30 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

मेजर जनरल राजेश कामरान (एमआर-03841एन), पीसी, 31 जनवरी 2012

बिग्रे एन के शर्मा (एमआर-03530ए), पीसी, 30 नवम्बर 2011

बिग्रे पी एल प्रसाद (एमआर-04321पी), पीसी, 30 नवम्बर 2011

बिग्रे पी एस सुकथंकर (एमआर-04400के), पीसी, 31 दिसम्बर 2011

बिग्रे जे जेना (एमआर-03736एक्स), पीसी, 31 मार्च 2012

कर्नल एस चट्टोपाध्याय (एमआर-05368एम), पीसी, 31 जनवरी 2012

कर्नल सुंदर सिंह (एमआर-04634एन), पीसी, 31 जनवरी 2012

कर्नल एन दास (एमआर-04193एच), पीसी, 31 जनवरी 2012

कर्नल एस सी तोमर (एमआर-04636वाई), पीसी, 31 मार्च 2012

कर्नल एस वी पंचाभाई (एमआर-05073डब्ल्यू), पीसी, 31 मार्च 2012

कर्नल (टीएस) महेश नादकर (एमआर-05339एक्स), पीसी, 31 जनवरी 2012

कर्नल (टीएस) पी के पंडा (एमआर-05857एक्स), पीसी, 31 मार्च 2012

कर्नल (टीएस) राकेश आर्य (एमआर-03591एक्स), पीसी, 31 मार्च 2012

बिग्रे एच एस गिल (एमआर-03772एच), पीसी, 31 दिसम्बर 2011

बिग्रे समर रूद्र (एमआर-04368ए), पीसी, 31 जनवरी 2012

बिग्रे पी साहू (एमआर-04377एफ), पीसी, 29 फरवरी 2012

बिग्रे बी पी सिंह (एमआर-03470डब्ल्यू), पीसी, 31 मार्च 2012

कर्नल शिव कुमार (एमआर-04246डब्ल्यू), पीसी, 31 मार्च 2012

यश पांडे

बिग्रे

उपमहानिदेशक ससेचिसे (मास)

सेना शाखा

सं. 490, दिनांक 30 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे (क्लास X) आधीन एसएआई 10/5/63 यथा संशोधित में स्थानांतरित करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आईसी-43947) लेफिट कर्नल त्री दिबेन्दु बनर्जी, सिग्नल्स, 22 अगस्त 2010 (अप)

(आईसी-46700) लेफिट कर्नल सौरभ सोन्थ, सिग्नल्स, 18 दिसम्बर 2011 (अप)

(आईसी-49302) लेफिट कर्नल जितेन्द्र सिंह नेगी, इंफैन्ट्री, 09 मार्च 2012 (अप)

(आईसी-56513) मेजर एच शिरिश कुमार पिल्लै, एसएम इन्फैन्ट्री, 10 मार्च 2012 (अप)

(आईसी-47919) लेफिट कर्नल नवनीत कुमार दहिया, आर्टी, 10 मार्च 2012 (अप)

(आईसी-50022) लेफिट कर्नल पी बी बिरादर, आर्टी, 16 मार्च 2012 (अप)

(आईसी-48842) लेफिट कर्नल दीपक गुहा निधोगी, एओसी, 20 मार्च 2012 (अप)

(आईसी-47284) लेफिट कर्नल जे एस बोपाराय, इन्ट, 10 मार्च 2012 (अप)

(आईसी-49032) लेफिट कर्नल अनिल अहुजा, आर्मी एवीएन, 11 अप्रैल 2012 (अप)

(आईसी-47374) लेफिट कर्नल प्रह्लाद किशन जेटली, इंफैन्ट्री, 18 मार्च 2012 (अप)

(आईसी-46354) लेफिट कर्नल शेखर किशोर प्रसाद, एओसी, 17 मार्च 2012 (अप)

(आईसी-49906) लेफिट कर्नल सुमीत शाही, सिग्नल्स, 21 अप्रैल 2012 (अप)

(आईसी-50023) लेफिट कर्नल प्रसन्ना कुमार, एएससी, 26 अप्रैल 2012 (अप)

(आईसी-39245) लेफिट कर्नल गुरमीत सिंह पाथेर, एओसी, 02 मई 2012 (अप)

(आईसी-49540) लेफिट कर्नल शशी भूषन, एओसी, 18 मार्च 2012 (अप)

(आईसी-60112) मेजर दिनेश तिवारी, सिग्नल्स, 21 मई 2012 (अप)

(आईसी-42864) लेफिट कर्नल एम सतीश राज, एसी, 02 मई 2012 (अप)

(आईसी-50076) लेफिट कर्नल घूमन करमिन्दर सिंह, मैक इंफैन्ट्री, 30 मार्च 2012 (अप)

(आईसी-50489) लेफिट कर्नल कुमार अभिषेक, इंजीनियर्स, 13 मार्च 2012 (अप)

(आईसी-46908) लेफिट कर्नल ओथरा अब्राहम ऊन्नीटन, ईएमई, 27 मई 2012 (अप)

वन्दना दुबे
उप निदेशक
एमएस/पीआर

सेना सचिव शाखा

शुद्धि पत्र

सं. 491, दिनांक 30 अक्टूबर 2012--भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 07 मार्च 2009 में शीर्षक नियमित सेना, स्थायी कमीशन के उपशीर्षक लेफिटनेंट जनरल के मूल रैंक के अंतर्गत मेजर जनरल पी के रथ, एवीएसएम, आर्टी (जीसी) के मूल रैंक में शुद्धि :--

के लिए :--

मेजर जनरल पी के रथ, एवीएसएम, (आईसी-25448), आर्टी (जीसी), (03 अक्टूबर 2008 से ज्येष्ठा परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

पढ़ें :--

मेजर जनरल पी के रथ, एवीएसएम, (आईसी-25448), आर्टी (जीसी), 24 मई 2010

ए चंद्रशेखर
निदेशक/एमएस (एक्स)

सेना शाखा
कप्तान से मेजर

सं. 492, दिनांक 31 अक्टूबर 2012--भारत के राजपत्र भाग 1 अनुभाग 4 में दिनांक 07 अगस्त 2004 को शीर्षक “नियमित सेना स्थायी कमीशन” एवं उप शीर्षक “कप्तान से मेजर” के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के सामने :

(आईसी-48787) सुमित मुखर्जी, एओसी

के बदले :

27 अक्टूबर 2002 (लेकिन वेतन एवं भत्ता दिनांक 27 अक्टूबर 2003)

पढ़ा जाए :

14 जनवरी 2000

प्रभात रॉस
उप निदेशक
एमएस-8सी

वायु शाखा

सं. 493, दिनांक 31 अक्टूबर 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

उड़न शाखा

एयर वाईस मार्शल (उड़न) के मूल रैंक में :--

भारत के राजपत्र में दिनांक 03 सितम्बर 2011 के प्रकाशन में निम्नलिखित संशोधन किया जाये :--

वायु अधिकारी का विवरण

एयर वाईस मार्शल (एकिंग) आर के धीर (15678) उ(पा)

के लिए :

दिनांक 14 जुलाई 2010

पढ़ें :

दिनांक 01 जुलाई 2010

ए के सिंह
उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 (बी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 17 November 2012

ARMY BRANCH

No. 474, dated 22nd October 2012—The President is pleased to make the following appointments under the provision of Gol, MoD letter No. B/32313/PC//AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 SAI 3/S/70 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 02 March 2012, on relinquishing their Short Service Commission wef 02 March 2012:—

- (IC-65575H) (SS-39589L) Sanjeev Kumar Dogra, ASC
- (IC-65576L) (SS-39590A) Anurag Aiery, Inf
- (IC-65602F) (SS-39632F) Tapan Singh Tomar, Mech Inf
- (IC-65612L) (SS-39650K) P Prabhu Raj, Arty
- (IC-65613N) (SS-39651M) Ajay Singh, Inf
- (IC-65615Y) (SS-39655H) Ashish Jhingan, Inf
- (IC-65616F) (SS-39656L) Gourav Arora, Arty

The dates to be considered in respect of abovementioned officers in regular commission will be as follows:—

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| Date for increment of pay | — 02 March 2002 |
| Date for promotion | — 02 Nov 2002 |

The inter-se-seniority, vis-a-vis to the officers granted PC in 10 year alongwith the officer of their batch granted PC in the 05 year, will however remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission of SSC-73 (Non Tech) Course.

The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 (as amended) and SAI 7/S/66 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The Undermentioned WSES (O) has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 24 August 2001, on relinquishing her WSES (O) Commission wef 24 August 2001:—

- (IC-55747Y) (WS-00197F) Leena Gurav, Jag

The dates to be considered in respect of abovementioned officer in regular commission will be as follows:—

- Date for increments of pay — 24 Aug 1996

- Date of seniority for promotion — 24 Aug 1997

The inter-se-seniority vis-a-vis those officers commissioned on the same date and granted permanent

commission with same seniority for promotion, will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of commission to WSESOS/SSCOs.

JEETENDRA OHRI

Col

Col MS-7

ARMY BRANCH

No. 475, dated 22 October 2012—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned one Gentleman Cadet of 111 TG Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) is granted permanent commission in the rank of Lt wef 11 Jun 2011 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended. He is also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 14 Jun 2009 under SAI 1/S/94, as amended for GC of TG Course.

T/6882 Ankit Roy (IC-75739F), Arty with the seniority below U/1007 Durlav Swain (IC-75738Y), AAD.

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts wef 12 Jun 2010)

Yashovardhan Bhati (IC-72317L), Inf seniority next below Arnab Anadh Sanyal (IC-72316H), Arty Comma Shetty Gaurav Mohan (IC-72468K), Inf seniority next below Radharaman Goswami (IC-72467F), Arty Comma Arvind Sharma (IC-72507X), ASC seniority next below Satish Kumar Yadav (IC-72506P), Inf Comma Aditya (IC-72532W), Arty seniority next below Vikram Yadav (IC-72531N), Mech Comma Arun Das A (IC-72549K), Inf seniority next below Lonkar Ashwin Ramesh (IC-72548F)AAD, Comma Hari Neel Varun Sharma (IC-72571P), Arty seniority next below Bhupendra Pal Singh (IC-72570M), Inf whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 12 Feb 2011.

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned one GC of 111 Technical Graduate Course (TGC) is granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against his name under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended for the GC of TG Course:—

T/6882 Ankit Roy (44690P), Sigs, 16 Aug 2010

The Arm/Service allotted to the GC is valid for the duration of his training only.

RAHUL SANGWAN

Lt Col

AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 476, dated 22 October 2012—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY**(SHORT SERVICE COMMISSION)**

To be Lt

The undermentioned seven officers of SSC (NT)-91 Course have completed their Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 19 Mar 2011. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 19 Mar 2011 under the provisions of SAI 1/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2 (a) 921/D (AG) dt 20 Jul 2006:—

Satare Amol Avinash (SS-44427), Engrs with the seniority below Vineet Bhatt (SS-44426F), EME, Ningthoujam Subash Singh (SS-44430K), Inf and Raj Kumar (SS-44432P), Inf with the seniority below Hari Prasad US (SS-44428M), Mech, Rajkumar Avik Gohain (SS-44449H), AC with the seniority below Navdeep Singh (SS-44448A), AOC, Jitender Kumar (SS-44453L), Arty with the seniority below Shivendra Singh (SS-44452H), AVN, Ajay Kumar (SS-44460F), AC with the seniority below Lalit Kumar Sharma (SS-44458K), Inf and Khupmuanlian (SS-44485N), Inf with the seniority below Randhir Kumar (SS-44484L), AVN whose names have been published in the Gazette of India dated 31 Dec 2011.

NEERAJ KUMAR
Maj
AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 477, dated 23 October 2012—The President is pleased to make the following appointment under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY**PERMANENT COMMISSION**

To be Lt (on Prob)

Mohit Mittal (MR-09224F), AMC, 10 Sep 2011

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

NAVY BRANCH

No. 478, dated 23 October 2012—The President is pleased to make the following appointments in the Executive Branch (General Service, Nai Cadre, Logistics Cadre, Observer, Musician), Education Branch, Engineering Branch (General

Service), Electrical Branch (General Service), Electrical Branch (Submarine) and Engineering Branch (Naval Architecture) in Jul 2009 Course of the Indian Navy for Direct Entry Scheme/ University Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 Dated 03 Jan 2012 & MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 09 May 2012 from the date shown Against the name:—

To be Sub Lt (on Probation)

DIRECT ENTRY SCHEME

Executive Branch (General Service)

Sujeet G Hiremath (06499W), SSC, 06 Jul 2009

Lakhani Dhaval Prafulchandra (06500Y), SSC, 06 Jul 2009

Amit Sharma (06501Z), SSC, 06 Jul 2009

Harsha Nadig LG (06502A), SSC, 06 Jul 2009

Vivek Kumar Singh (06504F), SSC, 06 Jul 2009

Jagroop Singh Sheokand (06505H), SSC, 06 Jul 2009

Solaimalai Periyaraj (06506K), SSC, 06 Jul 2009

Aman Chawla (06507N), SSC, 06 Jul 2009

Adithya Shyam (06509T), SSC, 06 Jul 2009

Nishant Kumar Sinha (06511Y), SSC, 06 Jul 2009

Nikhil Kulkarni (06512Z), SSC, 06 Jul 2009

Harinder Singh (06515F), SSC, 06 Jul 2009

EXECUTIVE BRANCH (NAI CADRE)

Athokpam Deepak Kumar (06526F), PC, 06 Jul 2009

Somasundaram SP (06527H), PC, 06 Jul 2009

Mankanwar Singh (06528K), PC, 06 Jul 2009

Avinash Rajendran (06529N), PC, 06 Jul 2009

Bipul Kumar Chanda (06530R), PC, 06 Jul 2009

J R Suresh (06531T), PC, 06 Jul 2009

Kalli Venkata Rama Reddy (06532W), PC, 06 Jul 2009

EXECUTIVE BRANCH (LOGISTICS CADRE)

Mira Shah (06516H), SSC, 06 Jul 2009

Varun Prakash Rathi (06517K), SSC, 06 Jul 2009

Akhil Sharma (06518N), SSC, 06 Jul 2009

Devina Sanyal (06519R), SSC, 06 Jul 2009

Laxmi Shukla (06520T), SSC, 06 Jul 2009

Tanisha Chakraborty (06521W), SSC, 06 Jul 2009

Priyanka Choudhary (06522Y), SSC, 06 Jul 2009

Rahul Krishna R (06523Z), SSC, 25 Jul 2009

Megha Gupta (06524A), SSC, 06 Jul 2009	ELECTRICAL BRANCH (SUBMARINE)
Avinash Barthwal (06525B), SSC, 27 Jul 2009	Ashish Mohan Choubey (52461B), SSC, 06 Jul 2009
EXECUTIVE BRANCH (OBSERVER)	Puneeth Bhat R (52462F), SSC, 06 Jul 2009
Abhishek Singh (06533Y), SSC, 06 Jul 2009	ENGINEERING (NAVAL ARCHITECTURE)
Kuljinder Singh Virk (06534Z), SSC, 06 Jul 2009	Suharsh Singh (42965Y), SSC, 06 Jul 2009
Pawan Kumar Yadav (06535A), SSC, 06 Jul 2009	Vishak S (42966Z), SSC, 06 Jul 2009
Sreedhar Ranganathan (06536B), SSC, 06 Jul 2009	Yalala Shiva Prasad (42967A), SSC, 06 Jul 2009
Mithun Eknath Gawade (06537F), SSC, 06 Jul 2009	Digvijay Singh Ranawat (42968B), SSC, 25 Jul 2009
Nisha Kumari (06539K), SSC, 06 Jul 2009	UNIVERSITY ENTRY SCHEME
Sunny Jaiswal (06540N), SSC, 06 Jul 2009	Engineering Branch (UES)
Deosthalee Prerana Pravin (06541R), SSC, 06 Jul 2009	Hardeep Singh (42975W), SSC, 10 Jul 2009
EXECUTIVE BRANCH (MUSICIAN) (PC)	Ashish Kumar Tareriya (42976Y), SSC, 06 Jul 2009
Jaffe Eapen C (06542T), PC, 06 Jul 2009	Munish Kumar (42977Z), SSC, 06 Jul 2009
EDUCATION BRANCH (PC)	Devender Sharma (42978A), SSC, 06 Jul 2009
K M Prakadheeswaran C (70606T), PC, 06 Jul 2009	Harpreet Singh (42980F), SSC, 06 Jul 2009
Manish Chowdhary (70607W), PC, 26 Jul 2009	Vijay Pratap Singh (42982K), SSC, 06 Jul 2009
Sarin P M (70608Y), PC, 06 Jul 2009	Abhijit Mohanty (42983N), SSC, 06 Jul 2009
Debashish Jena (70609Z), PC, 06 Jul 2009	Sourabh Deep Singh (42984R), SSC, 06 Jul 2009
Ravikant Shukla (70610A), PC, 06 Jul 2009	Pravan Goel (42985T), SSC, 06 Jul 2009
Sandeep Singh Virk (70611B), PC, 14 Jul 2009	Saurabh Tyagi (42987Y), SSC, 06 Jul 2009
Amit Bhalerao (70612F), PC, 06 Jul 2009	Munish Bansal (42988Z), SSC, 06 Jul 2009
Shobhit Khanna (70613H), PC, 06 Jul 2009	ELECTRICAL BRANCH (UES)
Deepak R Simha (70614K), PC, 06 Jul 2009	Gautam Aneja (52468W), SSC, 06 Jul 2009
Deepak NV (70615N), PC, 06 Jul 2009	Abhishek Kumar Singh (52469Y), SSC, 06 Jul 2009
Syed Moin Basha (70616R), PC, 06 Jul 2009	Nikhil Kandpal (52470Z), SSC, 06 Jul 2009
Salimath Surajkumar Mallayya (70617T), PC, 20 Jul 2009	Akif Husain (52471A), SSC, 06 Jul 2009
Parichay Kalra (70618W), PC, 06 Jul 2009	Dhananjay Kumar Prasad (52472B), SSC, 06 Jul 2009
EDUCATION BRANCH (SSC)	Ketan Pahwa (52473F), SSC, 06 Jul 2009
Shweta Prashar (70619Y), SSC, 19 Jul 2009	Rajiv Kumar Saha (52474H), SSC, 06 Jul 2009
ENGINEERING BRANCH (GENERAL SERVICE)	Jeevan Joshi (52475K), SSC, 06 Jul 2009
Tooshar Saraswat (42962R), SSC, 06 Jul 2009	Manish Kumar Tiwari (52476N), SSC, 06 Jul 2009
Aman Sahni (42963T), SSC, 06 Jul 2009	Sukhjeet Singh Hundal (52477R), SSC, 06 Jul 2009
Ankit Sharma (42964W), SSC, 06 Jul 2009	Sathish Kumar S (52478T), SSC, 06 Jul 2009
ELECTRICAL BRANCH (GENERAL SERVICE)	Ashish Kumar Jaiswal (52479W), SSC, 06 Jul 2009
Nekkanti Satya Kireet (52463H), SSC, 06 Jul 2009	Ujjawal Kumar (52480Y), SSC, 06 Jul 2009
Ashwin N C (52464K), SSC, 06 Jul 2009	Rahul Gupta (52481Z), SSC, 06 Jul 2009
Abhinav Upadhayay (52465N), SSC, 06 Jul 2009	Dixit Mannan (52482A), SSC, 06 Jul 2009
Rohit Dhir (52467T), SSC, 06 Jul 2009	

Jerrit Abraham (52484F), SSC, 06 Jul 2009
 Shefy (52485H), SSC, 06 Jul 2009
 Aditya Singh Yadav (52486K), SSC, 06 Jul 2009
 Abdul Shoyeb Khan (52487N), SSC, 06 Jul 2009
 Rahul Kushwah (52488R), SSC, 06 Jul 2009
 Hemant Kaushik (52489T), SSC, 06 Jul 2009
 Ravi Shankar Singh (52490W), SSC, 06 Jul 2009
 Shanbhag Vinay Gurudas (52491Y), SSC, 06 Jul 2009
 Shubham Sharma (52492Z), SSC, 06 Jul 2009
 Dhruv Arora (52493A), SSC, 06 Jul 2009
 Rohit Raveendranath (52494B), SSC, 06 Jul 2009
 Aditya Sachdeva (52495F), SSC, 06 Jul 2009
 Jackson Babu (52496H), SSC, 06 Jul 2009
 Vibhav Trivedi (52497K), SSC, 06 Jul 2009
 Prithish Chand S P (52498N), SSC, 06 Jul 2009
 Pandya Dhruval Kanaiyalal (52499R), SSC, 06 Jul 2009
 Gagandeep Wadhwa (52500T), SSC, 06 Jul 2009
 Ranbir Singh (52501W), SSC, 06 Jul 2009
 Shyam Anubhav Sharma (52502Y), SSC, 06 Jul 2009
 Abhishek Mehta (52503Z), SSC, 06 Jul 2009
 Diljeet Bariana (52504A), SSC, 06 Jul 2009
 Sharad Joshi (52505B), SSC, 06 Jul 2009
 Debjyoti Banerjee (52506F), SSC, 06 Jul 2009
 Aheesh Gaur (52507H), SSC, 06 Jul 2009
 Rakesh Kumar (52508K), SSC, 06 Jul 2009
 Abhinav Das (52509N), SSC, 06 Jul 2009
 Rohit Rai (52510R), SSC, 06 Jul 2009
 Sumit Koul (52511T), SSC, 06 Jul 2009
 Sandeep Sasidharan (52512W), SSC, 06 Jul 2009
 Nandagiri Krishna Teja (52513Y), SSC, 06 Jul 2009
 Sahil Verma (52514Z), SSC, 06 Jul 2009
 Rohit Sunil Naiar (52515A), SSC, 06 Jul 2009
 Krishan Kumar Rangra (52516B), SSC, 06 Jul 2009
 Vicky Sharma (52517F), SSC, 06 Jul 2009

R Rajagopalan
 Commander
 JDMPR (OI & R)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 479, dated 23rd October 2012—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) ‘B’ (Group ‘A’) in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the dates shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- :—

- 2010AB1172 Rounak Padgil, ARDE, Pune, 19 May 2010
- 2010AB1260 Santosh Kumar Prasad, CVRDE, Chennai, 10 Nov 2010
- 2010AB1216 Anubhav Adak, DLRL, Hyderabad, 30 Dec 2010
- 2010AB1102 Nidhi Verma, DLRL, Hyderabad, 19 May 2010
- 2008AB1294 Omkar P, DLRL, Hyderabad, 21 May 2008
- 2009AB1609 Asfer Rafi, DRDL, Hyderabad, 01 Dec 2009
- 2010AB1163 Narender Kumar, DRDL, Hyderabad, 19 May 2010
- 2010AB1011 Gottipati Sai Krishna Prasad, DRDL, Hyderabad, 19 Feb 2010
- 2009AB1671 Bharathan RD, GTRE, Bangalore 01 Dec 2009
- 2009AB1664 Dev Prakash Sharma, IRDE, Dehradun, 01 Dec 2009
- 2010AB1006 Md. Mustakim, LRDE, Bangalore, 22 Feb 2010
- 2011AB1007 Ushasi Mandal, NMRL, Ambernath, 25 Apr 2011
- 2010AB1103 Raghuram Kakinada, NSTL, Vishakhapatnam, 19 May 2010
- 2010AB1004 Avinash Ecka, R&DE (E), Pune, 29 Apr 2011
- 2009AB1563 Naresh Gandham, RCI, Hyderabad, 01 Dec 2009
- 2010AB1118 Aditya Bharti, RCI, Hyderabad, 19 May 2010
- 2009AB1398 D Ravindar, RCI, Hyderabad, 03 Jun 2009
- 2009AB1271 Ranjan Kumar Choudhary, RCMA, Kanpur, 03 Jun 2009
- 2010AB1259 Laxman, SPIC, Delhi, 26 Nov 2010

SMITA AHUJA
 Dy Dir/Pers(S-1)

No. 480, dated 25th October 2012—The President is pleased to confirmed the undermentioned officers who were granted Permanent Commission and Brevets (On Probation) in Flying (Navigator) Branch, wef the dates stated against their names :—

INDIAN AIR FORCE

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Fg Offr G Vishnu Prasad (31115), F (N)

Fg Offr Satyendra Kumar Yadav (31117), F (N)

Fg Offr Mayank Goswami (31176), F (N)

—Confirmation wef 19 Jun 2010

The President is pleased to confirmed the undermentioned officers were granted Permanent Commission, wef the dates stated against their names :—

INDIAN AIR FORCE

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Pritpal Singh Bamrah (31182), ADM

Fg Offr Priyank Pandey (31183), ADM

Fg Offr Anshuman Sharma (31184), ADM

Fg Offr Veehor Gaur (31185), ADM

Fg Offr Vedant Patnaik (31186), ADM

Fg Offr Sagar Soni (31187), ADM

Fg Offr Dinesh Kumar (31188), ADM

Fg Offr Ankit Kulshreshtha (31189), ADM

Fg Offr Rahul Jha (31191), ADM

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr AK Pandey (31192), LGS

Fg Offr Sunny Nain (31193), LGS

Fg Offr Kuldeep Singh Teotia (31194), LGS

Fg Offr Siddharth Singh (31195), LGS

Fg Offr Gajanan Haralikar (31196), LGS

Fg Offr Samjay Kumar Singh (31197), LGS

Fg Offr Sanjay Jacob (31198), LGS

Fg Offr Dyuman Singh (31199), LGS

Fg Offr Aftab Khan (31200), LGS

Fg Offr Rakesh Sharma (31201), LGS

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Prasant Gupta (31202), EDN

Fg Offr Awanindra Nath Thakur (31203), EDN

Fg Offr Sarvesh Kumar Pandey (31204), EDN

Fg Offr Sarvesh Kumar Mishra (31205), EDN

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Madan Gopal (30680), MET

—Confirmation wef 19 Jun 2010

The President is pleased to confirm the undermentioned officers granted Short Service Commission, wef the dates stated against their names :—

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Anupam Chaudhary (31234), F (P)

Fg Offr Bhupali Vadke (31235), F (P)

Fg Offr Rakhi Bhandari (31236), F (P)

—wef 19 Jun 2010

ADM BRANCH

Fg Offr K Sridhar (31206), (ADM)

Fg Offr Ajaykumar Chaturvedi (31207), (ADM)

Fg Offr Devinder Pal Singh Poonia (31208), (ADM)

—wef 19 Jun 2010

The President is pleased to confirm the undermentioned officers who were granted Short Service Commission (on probation), wef the dates stated against their names :—

INDIAN AIR FORCE

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Nidhi Nariyal (31237)

Fg Offr Kunwar Jyoti (31238)

Fg Offr Adhishree Aggarwal (31239)

Fg Offr Shalini Maddirala (31240)

Fg Offr Jasween Kaur Sahani (31241)

Fg Offr Shivamjot Kaur Sandhu (31242)

Fg Offr Vijay Laxmi Sen (31244)

Fg Offr Chandan Yadav (31245)

Fg Offr Shalika Sharma (31246)

Fg Offr Sonia Sangwan (31247)

Fg Offr Bindu (31248)

Fg Offr Swati Sirohi (31249)

Fg Offr Divya Tiwari (31250)

Fg Offr Himanshi Bartwal (31251)

Fg Offr Suchindra (31252)

Fg Offr Manju Kumari (31253)
 Fg Offr Kawal Preet Bakshi (31254)
 LOGISTICS BRANCH
 Fg Offr Harpreet Kaur Parmar (31255)
 Fg Offr Reshu Chaudhary (31256)
 Fg Offr Sheetal Tripathi (31257)
 Fg Offr Monica Bharan (31258)
 Fg Offr Tanya Singh (31259)
 ACCOUNTS BRANCH
 Fg Offr K Deva Nandhini (31260)
 Fg Offr Shilpa Sharma (31261)
 Fg Offr Urvashi Roy (31262)
 Fg Offr Prachi Sarin (31263)
 Fg Offr Pooja Negi (31264)
 Fg Offr Anand Deep Kaur (31265)
 Fg Offr Aradhana Bedi (31266)

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Evelyn Tudu (31267)

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Minakshi Devi (30681)
 Fg Offr Ketki Deshmukh (30682)
 Fg Offr Vandana Chaudhary (30683)

—Confirmation wef 19 Jun 2010

AERONAUTICAL ENGINEERING

(ELECTRONICS/MECHANICAL) BRANCH
 Fg Offr Nupur (31403), AE(L)
 Fg Offr Reetika Bajaj (31393), AE(L)
 Fg Offr Sakthivel K (31362), AE(M)
 Fg Offr Guru Prasad (31374), AE(L)
 Fg Offr Satyadeep Sharma (31375), AE(L)
 Fg Offr Aswath R Mahadev (31407), AE(L)
 Fg Offr Aditi Jain (31381), AE(M)
 Fg Offr Mahabir Singh Danu (31367), AE(M)
 Fg Offr Korde Vidhyasagar (31366), AE(M)
 Fg Offr Vishal Jain (31379), AE(L)
 Fg Offr Mini Daral (31398), AE(L)
 Fg Offr Sadhya Devi (31396), AE(L)
 Fg Offr Suryanshu Pugla (31378), AE(L)
 Fg Offr Akshay Misra (31370), AE(L)

Fg Offr Boli Srivastava (31390), AE(L)
 Fg Offr Vipin Rukkanath (31368), AE(L)
 Fg Offr Vignesh N (31361), AE(M)
 Fg Offr Swati Gupta (31397), AE(L)
 Fg Offr Kanchan Kumari (31387), AE(L)
 Fg Offr Jyoti Agarwal (31394), AE(L)
 Fg Offr Mohan Prasad R (31358), AE(M)
 Fg Offr MP Manu Bharadwaj (31369), AE(L)
 Fg Offr Parul Chawla (31388), AE(L)

Fg Offr Shyam Paul Edward (31380), AE(L)
 Fg Offr Anita Kumari (31392), AE(L)
 Fg Offr Pradeep T Nair (31359), AE(M)
 Fg Offr Apoorva Chandra (31406), AE(M)
 Fg Offr Peter Palmer (31371), AE(L)
 Fg Offr Sharmistha Joshi (31395), AE(L)
 Fg Offr Anusha Raghav (31382), AE(M)
 Fg Offr Ankita Thakral (31384), AE(L)

Fg Offr Ena Yadav (31400), AE(L)
 Fg Offr Pawar Rahul Daga (31376), AE(L)
 Fg Offr Preerna Pathania (31389), AE(L)
 Fg Offr Gaurav Kumar (31365), AE(M)
 Fg Offr Nikhil Deo (31373), AE(L)
 Fg Offr Eshani Tankha (31402), AE(L)
 Fg Offr Shah Mohammad Faisal (31377), AE(L)
 Fg Offr Rahani Singh (31386), AE(L)
 Fg Offr Abhishek Singh (31372), AE(L)
 Fg Offr Mauri Yeolekar (31053), AE(L)
 Fg Offr Vivek N (31364), AE(M)
 Fg Offr Prithvirajan U (31360), AE(M)
 Fg Offr M S Leenu (31385), AE(L)
 Fg Offr Dharshan YG (31363), AE(M)

—Confirmation wef 30 Jun 2011

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Rakesh Kumar Pandey (31220)
 Fg Offr Sandeep K Balakrishnan (31221)
 Fg Offr Praveen Kumar (31224)
 Fg Offr Arpit Negi (31225)
 Fg Offr Prabhakar Bhatt (31226)

Fg Offr Talvinder Singh Reen (31227)

Fg Offr Naveen Kumar Yadav (31230)

Fg Offr Shubham Mishra (31231)

—wef 19 Jun 2010

LGS BRANCH

Fg Offr Abhimanyu Rathee (31232)

Fg Offr Thokchom Basabta Kumar (31233)

—wef 19 Jun 2010

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Sandeep Khokhar (31211), F(P)

Fg Offr Akshat Dubey (31212), F(P)

Fg Offr Amit Sethi (31213), F(P)

Fg Offr Raghvendra Singh (31214), F(P)

Fg Offr Vernon Desmond Keane (31215), F(P)

Fg Offr Vinod Raj Mohan (31216), F(P)

Fg Offr Ravinder Singh (31217), F(P)

Fg Offr Ashish Hungund (31218), F(P)

Fg Offr Eklavya Singh (31219), F(P)

—wef 19 Jun 2010

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Fg Offr Vishal Kumar (31210), F(N)

—wef 19 June 2010

TARUN KHARE

Wg Cdr
JDPO-3(D)

ARMY HEADQUARTERS

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 481, dated 25th October 2012—The President is pleased to make the following promotion :—

To be Chief of Army Staff

(IC-25816) General Bikram Singh, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM, ADC, Sikh LI, 01 Jun 2012

PERMANENT COMMISSION

To be Subs General

(IC-25816) General Bikram Singh, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM, ADC, Sikh LI, 01 Jun 2012

A. CHANDRASHEKHAR
Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 482, dated 25th October 2012—The President is pleased to make the promotion of under mentioned AMC officers with effect from the date as indicated against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to Col (Time Scale)

(MR-05486A) Lt Col NK Rathore, 12 Jul 2011

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 483, dated 26th October 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Subs Col (By Time Scale)

(IC-30918P) Lt Col B C Choudhary, Sigs, 16 Dec 2004

(IC-41812H) Lt Col Kuldip Singh, EME, 17 Dec 2009

(IC-41813L) Lt Col K S Lota, EME, 17 Dec 2009

(IC-42509N) Lt Col P K Nangia, AOC, 15 Dec 2010

(IC-42629M) Lt Col Y Maitre, AAD, 15 Dec 2010

(IC-42961H) Lt Col R Thakur, AOC, 08 Jun 2011

(IC-43100Y) Lt Col A S Pawar, AOC, 08 Jun 2011

(IC-43322N) Lt Col Y Samnol, Mech Inf, 14 Dec 2011

(IC-43533W) Lt Col N N Bajpayee, EME, 14 Dec 2011

(IC-43629Y) Lt Col P V Sivaram, EME, 18 Dec 2009

(IC-45292A) Lt Col B S Rao, Mech Inf, 09 Nov 2010

(IC-45333Y) Lt Col H S Jhally, EME, 09 Nov 2010

(IC-45471A) Lt Col Sunil Datt, EME, 07 Nov 2011

(IC-45508W) Lt Col K S Vasudevan, AOC, 07 Nov 2011

(IC-45521A) Lt Col Onkar Sharma, Arty, 07 Nov 2011

(IC-45527F) Lt Col Sandeep Mittal, Guards, 22 Apr 2012

(IC-45536H) Lt Col Rajeev Pandey, AC, 22 Apr 2012

(IC-45538N) Lt Col J N Rai, Inf, 22 Apr 2012

(IC-45570H) Lt Col T S Parmar, EME, 22 Apr 2012

(IC-45572N) Lt Col Akhil Sharma, Inf, 22 Apr 2012

(IC-45581P) Lt Col R K Mishra, Inf, 22 Apr 2012

(IC-45588Y) Lt Col N K Subhedar, AC, 22 Apr 2012

(IC-45590W) Lt Col Manmohan Singh, Int, 22 Apr 2012
 (IC-45597A) Lt Col S Shukla, Sigs, 22 Apr 2012
 (IC-47497N) Lt Col Y S Rana, EME, 19 Dec 2011
 (IC-00400M) Lt Col Dushyant Bali, RVC, 10 Feb 2012
 (IC-00412F) Lt Col R K Dahiya, RVC, 26 Nov 2010
 (IC-00415P) Lt Col S S Jamwal, RVC, 08 Mar 2011
 (IC-42130K) Lt Col L S Ramulu, Int, 09 Jun 2010
 (IC-42964W) Lt Col S N Randhawa, AC, 08 Jun 2011
 (IC-43206L) Lt Col K M Upadhyaya, AEC, 08 Jun 2011
 (IC-43214K) Lt Col P N Subrahmanyam, AEC, 08 Jun 2011
 (IC-43488P) Lt Col O K Pawar, Sigs, 14 Dec 2011
 (IC-43541P) Lt Col S C Prasad, Sigs, 14 Dec 2011
 (IC-45563M) Lt Col P N Menon, AC, 22 Apr 2012
 (IC-45573W) Lt Col Neeraj Jha, Inf, 22 Apr 2012
 (IC-45574Y) Lt Col A R Deshpande, Guards, 22 Apr 2012
 (IC-45586N) Lt Col S Malhotra, Inf, 22 Apr 2012
 (IC-45595P) Lt Col Vivek Joshi, AAD, 22 Apr 2012
 (IC-47530A) Lt Col U S Verma, Sigs, 19 Dec 2011
 (IC-44019Y) Lt Col B Bandopadhyaya, AOC, 14 Jun 2012
 (IC-43240L) Lt Col Achuthan Kutty KN, Inf, 14 Dec 2011
 (IC-43380X) Lt Col J K Menon, Inf, 14 Dec 2011
 (IC-43490M) Lt Col Raja Sharma, Engrs, 14 Dec 2011
 (IC-43742N) Lt Col Naresh Rana, Inf, 14 Jun 2012
 (IC-43795M) Lt Col A Murugesan, Inf, 14 Jun 2012
 (IC-43799H) Lt Col V K Patpatia, Inf, 14 Jun 2012
 (IC-43818H) Lt Col R N Pandey, Arty, 14 Jun 2012
 (IC-43871N) Lt Col S K Jena, Inf, 14 Jun 2012
 (IC-43885N) Lt Col N K Singh, ASC, 14 Jun 2012
 (IC-43948L) Lt Col D Choudhury, Inf, 14 Jun 2012
 (IC-43970W) Lt Col Raj Nayak Singh, AC, 14 Jun 2012
 (IC-44026P) Lt Col Prakash Kshirsagar, Engrs, 14 Jun 2012
 (IC-44958F) Lt Col A K Gupta, Engrs, 13 Jun 2012
 (IC-45389L) Lt Col Gurkirat Singh, EME, 20 Apr 2011
 (IC-47489P) Lt Col M K Chauhan, Engrs, 19 Dec 2011
 (IC-47537K) Lt Col A K Gupta, Engrs, 19 Dec 2011
 (IC-43898L) R S Hans, EME, 14 Jun 2012
 (IC-43967W) K D Athlay, Arty, 14 Jun 2012
 (IC-48011K) S Sihorkar, Engrs, 15 Jun 2012
 (IC-43727Y) Bahadur Singh, AOC, 14 Jun 2012

(IC-43899N) H M Maheshwari, Inf, 14 Jun 2012
 (IC-00410W) Lt Col S K Dixit, RVC, 16 May 2012
 (IC-00424W) Lt Col Arun Sharma, RVC, 16 May 2012
 (IC-00428M) Lt Col A K Puri, RVC, 16 May 2012

TERRITORIAL ARMY**TERRITORIAL COMMISSION**

Lt Col to be Subs Col (By Selection)

TERRITORIAL ARMY (DEPARTMENTAL)

(TA-41947) Col Rakesh Behal, TA(Deptt), 28 Jul 2009
 (TA-42020) Col Pradeep Kumar, TA(Deptt), 18 Nov 2011
 (TA-42056) Col M P Singh, TA(Deptt), 18 Nov 2011

TERRITORIAL ARMY (NON DEPARTMENTAL)

(TA-42417) Col D S Chauhan, TA(Non-Deptt), 02 Apr 2010
 (TA-42372) Col Naveen Sharma, TA(Non-Deptt), 21 Apr 2010
 (TA-42192) Col Rakesh Singh, TA(Non-Deptt), 21 Oct 2011

T K DAS
Dy Dir
MS-8A

ARMY BRANCH

No. 484, dated 26th October 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY**SPECIAL COMMISSION**

Capt to be Maj

(SC-00494) Ram Gopal Singh, ASC
 (SC-00495) Jitendra Singh Rana, EME
 (SC-00496) Panchhi Ram, AOC
 (SC-00497) Sat Paul, AOC
 (SC-00498) Laxman Singh, AOC
 (SC-00499) Sri Vivek Kumar, Arty
 (SC-00500) Kuldeep Kumar Bhanot, Arty
 (SC-00501) V G Surya Prabha, ASC

—10 Dec 2011

PRABHAT ROSS
Dy Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 485, dated 26th October 2012—The President is pleased to make the promotion of the under mentioned AMC officer with effect from the date mentioned against him/her:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Maj

Rekha Sharma (MS-15682A) (MR-09326X), AMC, 06 Sep 2011

(MoD Notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

To be Capt

Shweta Singh Rathore (MR-09182A), 26 Feb 2012

Piyush Khatkar (MR-09190Y), 26 Feb 2012

Kamparsh Thakur (MR-09191F), 26 Feb 2012

Rajat Chawla (MR-09194P), 26 Feb 2012

Arunchand R (MR-09196A), 26 Feb 2012

Rajiv Kaul (MR-09199N), 26 Feb 2012

Anwita Sinha (MR-09162M), 26 Feb 2012

Deepika Phogat (MR-09168N), 26 Feb 2012

Apoorv Saxena (MR-09169W), 26 Feb 2012

Anchit Raj Singh (MR-09175K), 26 Feb 2012

Gaurav Pathania (MR-09181X), 26 Feb 2012

Madhukar Upadhyay (MR-09183H), 26 Feb 2012

Sachin Chourasia (MS-15272X) (MR-09145M), AMC, 20 Feb 2007

(MoD Notification publication in Gazette of India dated 05 Jul 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Vaibhav Srivastava (MS-15565H) (MR-09334W), AMC, 30 Jul 2008

(MoD Notification publication in Gazette of India dated 17 Jul 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Praveen Kumar Yadav (MS-15529X) (MR-09333N), AMC, 06 Feb 2008

(MoD Notification publication in Gazette of India dated 18 Oct 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE
Brig
By DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 486, dated 29th October 2012—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

(ARMY MEDICAL CORPS)

To be Nb Sub (X-Ray Assistant)

Hav Gonimadatala S Ramamurty (No. 13981084M now JC-698534W), 05 May 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Manoj P C (No. 13988780M now JC-697487X), 08 Mar 2010*

Hav Ajay Kumar (No. 13989115W now JC-697520K), 17 Apr 2010*

Hav Manoj P V (No. 13989137P now JC-697526L), 12 Apr 2010*

Hav G Venkata Narayana Reddy (No. 13989435L now JC-697470K), 26 Feb 2010*

Hav Ahemna (No. 13989540F now JC-697553P), 05 May 2010*

Hav Umesh Kumar (No. 13989818X now JC-697805W), 06 Nov 2010*

Hav Ramakanta Das (No. 13990201N now JC-697488A), 16 Mar 2010*

Hav Rahate Rajesh Keshav (No. 13991741Y now JC-697471M), 23 Feb 2010*

* Hav Venkata Ramana Dabbada (No. 13992054P now JC-697472P), 03 Mar 2010*

Hav Rakesh Kumar (No. 13992859M now JC-697759M), 27 Oct 2010*

Hav Kale Dara Singh Ram Dhan (No. 13988333H now JC-697473X), 25 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav G Sajimon (No. 13991175K now JC-697474A), 03 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jitendra Kumar Singh (No. 13989368L now JC-697527N), 19 Apr 2010*

Hav Amendra Nath Roy (No. 13989745W now JC-697535M), 04 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

- Hav Arivazhagan L (No. 13990707M now JC-697583M),
09 Jun 2010*
- Hav Ravi A (No. 13993668K now JC-697584P), 23 Jun
2010*
- Hav Vinod Kumar (No. 13993538F now JC-698060A),
03 May 2011*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun
2010 without effect on pay and allces)
- Hav Aiyappan T N (No. 13990905X now JC-698263K),
09 Nov 2011*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jun
2010 without effect on pay and allces)
- Hav Varinder Singh (No. 13994342A now JC-698061H),
06 May 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010
without effect on pay and allces)
- Hav Shirke Dattaram Shanta Ram (No. 13992028N now
JC-697672L), 05 Aug 2010*
- Hav Bhanwar Singh (No. 13994672Y now JC-697673N),
02 Aug 2010*
- Hav Awadesh Tiwari (No. 13995607L now JC-697674W),
02 Aug 2010*
- Hav Harjit Paul (No. 13996018F now JC-697675Y), 02 Aug
2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug
2010 without effect on pay and allces)
- Hav Lingraj Behera (No. 13996191L now JC-697712F),
06 Sep 2010*
- Hav Rajesh T R (No. 13996236A now JC-697806Y),
02 Nov 2010*
- Hav Sunil Kumar (No. 13996310W now JC-697713K),
01 Sep 2010*
- Hav Anil Kumar Kaundal (No. 13996486F now JC-
698340N), 10 Dec 2011*
- Hav Dharmendra Kumar (No. 13996694W now JC-
698420L), 01 Sep 2010*
- Hav Ragavendra Prasad (No. 13996949L now JC-
697714M), 01 Sep 2010*
- Hav Ranjan K R Borah (No. 13997016H now JC-697807F),
11 Nov 2010*
- Hav Tarigonda Kullayappa* (No. 13997553N now JC-
697715P), 01 Sep 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2010 without effect on pay and allces)
- Hav Ella Govindu (No. 13997543K now JC-697810F), 01
Nov 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2010 without effect on pay and allces)
- Hav Anil Kumar S (No. 13996407F now JC-698264M),
05 Nov 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Nov
2010 without effect on pay and allces)
- Hav Arvind Kumar (No. 13988706L now JC-697856K),
01 Dec 2010*
- Hav Irappa Meeshi (No. 13988757Y now JC-697857M), 01
Dec 2010*
- Hav Wakchaure Ravasaheb Hari Bhau (No. 13990418X
now JC-697868Y), 10 Dec 2010*
- Hav C Pratapa Reddy (No. 13991478Y now JC-697858P),
01 Dec 2010*
- Hav Kharka Bahadur Thapa (No. 13991632M now JC-
697864H), 01 Dec 2010*
- Hav Sanjay Kumar Panday (No. 13992307Y now JC-
697859X), 01 Dec 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2010 without effect on pay and allces)
- Hav Akshya Anand (No. 13994216N now JC-697882L),
01 Jan 2011*
- Hav Sanjay Kumar (No. 13995619A now JC-697915L),
14 Jan 2011*
- Hav Nazir Ahmad Ganai (No. 13991097X now JC-698214F),
27 Sep 2011*
- Hav Tridib Das Mahapatra (No. 13994789X now JC-
697883W), 01 Jan 2011*
- Hav Praveen Kumar T G (No. 13995885Y now JC-
697884W), 01 Jan 2011*
- Hav Hira Singh Rana (No. 13996241L now JC-697890K),
01 Jan 2011*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011
without effect on pay and allces)
- Hav Rajendra Singh (No. 13996283X now JC-697921Y),
01 Feb 2011*
- Hav Patil Nitin Vithal Rao (No. 13991120A now JC-
698067K), 01 Feb 2011*
- Hav Vinod C A (No. 13993665W now JC-697922F), 01 Feb
2011*
- Hav Arjun Bajantri (No. 13993557M now JC-697965W),
08 Feb 2011*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2011 without effect on pay and allces)
- Hav Tarekeswara Rao Jami (No. 13994039Y now JC-
697966Y), 01 Mar 2011*
- Hav Pradip Karmakar (No. 13994788P now JC-697967F),
01 Mar 2011*

Hav Sahidur Rahman (No. 13994795L now JC-697968K),
05 Mar 2011*

Hav Netai Chakraborty (No. 13994786K now JC-697969M),
01 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2011 without effect on pay and allces)

Hav Subash Chandra Bose S (No. 13995758K now JC-
698021F), 06 Apr 2011*

Hav Raj Kumar (No. 13996358K now JC-698266X),
12 Nov 2011*

Hav Balvinder Singh (No. 13996364X now JC-698022K),
01 Apr 2011*

Hav Pramod N E (No. 13996816P now JC-698023M),
02 Apr 2011*

Hav Naresh Kumar Yadav (No. 13996757N now JC-
698389K), 26 Dec 2011*

Hav Anoop Khare (No. 13996788N now JC-698024P),
01 Apr 2011*

Hav Manish Dimri (No. 13996826Y now JC-698025X),
01 Apr 2011*

Hav Laxmikant Paria (No. 13996929X now JC-698026A),
05 Apr 2011*

Hav Sujeet Kumar Singh (No. 13996951X now JC-
698027H), 04 Apr 2011*

Hav Indal Singh (No. 13997260H now JC-698341W),
15 Dec 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2011 without effect on pay and allces)

Hav Anil Kumar Yadav (No. 13997681L now JC-698055P),
01 May 2011*

Hav Suraj Singh (No. 13998338P now JC-698112L),
25 May 2011*

Hav Raktim Phukan (No. 13998439H now JC-698113N),
25 May 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2011 without effect on pay and allces)

Hav Swadheen Kumar Pareek (No. 13998477Y now JC-
698114W), 26 Jun 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun
2011 without effect on pay and allces)

Hav Balwant Singh Yadav (No. 13998476W now JC-
698179K), 01 Jun 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun
2011 without effect on pay and allces)

Hav Md Johirul Alam (No. 13997514P now JC-698308Y),
17 Nov 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Jun
2011 without effect on pay and allces)

Hav Ajith Kumar P B (No. 13998677P now JC-698146Y),
02 Jul 2011*

Hav Sandeep Kumar Tiwari (No. 13998719W now JC-
698126L), 01 Jul 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011
without effect on pay and allces)

Hav Y Ravindranatha Reddy (No. 13998804Y now JC-
698152M), 01 Aug 2011*

Hav Sheetala Prasad Mishra (No. 13998374A now JC-
698535Y), 16 Feb 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug
2011 without effect on pay and allces)

Hav Ashok Kumar (No. 13997767K now JC-698426M),
06 Feb 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep
2011 without effect on pay and allces)

Hav Shiv Singh (No. 13996936N now JC-698229H),
14 Nov 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2011 without effect on pay and allces)

Hav Ajay Kumar (No. 13995624L now JC-698506K),
01 Apr 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Feb
2012 without effect on pay and allces)

Hav Sukh Jit Singh (No. 13998949K now JC-698507M),
03 Apr 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2012 without effect on pay and allces)

Hav Karuppaiah S (No. 13998977W now JC-698535Y), 01
May 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2012 without effect on pay and allces)

AJAY SAXENA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 487, dated 29th October 2012—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 27 Jun 2011 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION**

To be Capt

Manjunath S R (MS-15796Y) (MR-09322F), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Rituraj Kotoki (MS-16049A) (MR-09323K), AMC, 26 Feb 2009

with seniority for pay and promotion from 26 Aug 2008 (this includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Singh Smita Sahib Singh (MS-16042W) (MR-09324M), AMC, 26 Feb 2009

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jul 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Rekha Sharma (MS-15628A) (MR-09326X), AMC, 06 Sep 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Deepak Singh (MS-15708X) (MR-09329L), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Nirmala Venugopal (MS-15853P) (MR-09330A), AMC, 12 Aug 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 02 Jan 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Praveen Kumar Yadav (MS-15529X) (MR-09333N), AMC, 26 Mar 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Vaibhav Srivastava (MS-15565H) (MR-09334W), AMC, 31 Aug 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 25 Jun 2010 and to grant him/her

permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

To be Lt

Sachin Chourasia (MS-15272X) (MR-09145M), AMC, 13 Mar 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 May 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

**YASH PANDE
Brig
By DG AFMS (HR)**

**DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION**

No. 488, dated 29th October 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

G I Wadhwa, Chief Construction Engineer, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Sep 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) and Grade Pay Rs. 8,900/-

Vipin Kumar Jain, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 28 May 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

D Y Vasantha, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 30 May 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

R Sheshadri, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 28 May 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

H V Somashekara, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 28 May 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

Gajender Singh, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 07 Jun 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

G N Prasad to be Sr. Stores Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Jan 2012 (F/N) in the Pay Band of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs. 5,400/-

M R Kathiyayini, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 30 Mar 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

Anil Kumar, Accounts Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 09 Apr 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

Susheela Ganesh, Private Secretary 'A', Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 20 Sep 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

Padmavathi Sukumaran, PS 'A', Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 09 Apr 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-.

V P SINGH
Dy Dir (Pers)

ARMY BRANCH

No. 489, dated 30th October 2012—The President is pleased to retire the undermentioned officers on attaining the age of superannuation as indicated against each :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION (ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen Rajesh Kamran (MR-03841N), PC, 31 Jan 2012(AN)

Brig N K Sharma (MR-03530A), PC, 30 Nov 2011(AN)

Brig P L Prasad (MR-04321P), PC, 30 Nov 2011(AN)

Brig P S Sukthankar (MR-04400K), PC, 31 Dec 2011(AN)

Brig J Jena (MR-03736X), PC, 31 Mar 2012(AN)

Col S Chattopadhyay (MR-05368M), PC, 31 Jan 2012(AN)

Col Sunder Singh (MR-04634N), PC, 31 Jan 2012(AN)

Col N Dash (MR-04193H), PC, 31 Jan 2012(AN)

Col S C Tomar (MR-04636Y), PC, 31 Mar 2012(AN)

Col S V Panchabhai (MR-05073W), PC, 31 Mar 2012(AN)

Col (TS) Mahesh Nadkar (MR-05339X), PC, 31 Jan 2012(AN)

Col (TS) P K Panda (MR-05857X), PC, 31 Mar 2012(AN)

Col (TS) Rakesh Arya (MR-03591X), PC, 31 Mar 2012(AN)

Brig H S Gill (MR-03772H), PC, 31 Dec 2011(AN)

Brig Samar Rudra (MR-04368A), PC, 31 Jan 2012(AN)

Brig P Sahoo (MR-04377F), PC, 29 Feb 2012(AN)

Brig B P Singh (MR-03470W), PC, 31 Mar 2012(AN)

Col Shiv Kumar (MR-04246W), PC, 31 Mar 2012(AN)

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 490, dated 30th October 2012—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(IC-43947) Lt Col Tridibendu Banerjee, Sigs, 22 Aug 2010 (AN)

(IC-46700) Lt Col Saurabh Sondh, Sigs, 18 Dec 2011 (AN)

(IC-49302) Lt Col Jitendra Singh Negi, Inf, 09 Mar 2012 (AN)

(IC-56513) Maj H Shirish Kumar Pillai, SM, Inf, 10 Mar 2012 (AN)

(IC-47919) Lt Col Navneet Kumar Dahiya, Arty, 10 Mar 2012 (AN)

(IC-50022) Lt Col P B Biradar, Arty, 16 Mar 2012 (AN)

(IC-48842) Lt Col Deepak Guha Niyogi, AOC, 20 Mar 2012 (AN)

(IC-47284) Lt Col J S Boparai, Int, 10 Mar 2012 (AN)

(IC-49032) Lt Col Anil Ahuja, Army AVN, 11 Apr 2012 (AN)

(IC-47374) Lt Col Prahlad Kishan Jetley, Inf, 18 Mar 2012 (AN)

(IC-46354) Lt Col Shekhar Kishore Prasad, AOC, 17 Mar 2012 (AN)

(IC-49906) Lt Col Sumeet Shahi, Sigs, 21 Apr 2012 (AN)

(IC-50023) Lt Col Prasanna Kumar, ASC, 26 Apr 2012 (AN)

(IC-39245) Lt Col Gurmeet Singh Pandher, AOC, 02 May 2012 (AN)

(IC-49540) Lt Col Shashi Bhushan, AOC, 18 Mar 2012 (AN)

(IC-60112) Maj Dinesh Tewari, Sigs, 21 May 2012 (AN)

(IC-42864) Lt Col M Satish Raj, AC, 02 May 2012 (AN)

(IC-50076) Lt Col Ghuman Karminder Singh, Mech Inf, 30 Mar 2012 (AN)

(IC-50489) Lt Col Kumar Abhishek, Engrs, 13 Mar 2012 (AN)

(IC-46908) Lt Col Othara Abraham Oonnittan, EME, 27 May 2012 (AN)

VANDANA DUBE
Dy Dir
MS/PR

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 491, dated 30th October 2012—In the Government of India, Ministry of Defence, published in the Gazette of India, New Delhi, dated 07 Mar 2009 under heading REGULAR ARMY, PERMANENT COMMISSION, TO BE

SUBSTANTIVE LT GENERAL, Army Branch is hereby amended as under :—

For

Maj Gen P K Rath, AVSM (IC-25448), Arty (GC),
03 Oct 2008 with seniority from 01 Mar 2008 without effect on pay and pension

Read

Maj Gen P K Rath, AVSM (IC-25448), Arty (GC),
24 May 2010

A CHANDRASHEKHAR
Dir/MS(X)

No. 492, dated 31st October 2012—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 07 Aug 2004 under the heading “Regular Army, Permanent Commission”, and sub heading “Capt to be Maj” the following amendment is made :—

Against :

(IC-48784) Sumit Mukherjee, AOC

For :

27 Oct 2002 (But Pay & allowances wef 27 Oct 2003)

Read :

14 Jan 2000

PRABHAT ROSS
Dy Dir
MS-8C

AIR BRANCH

No. 493, dated 31st October 2012—The President is pleased to make the following substantive promotions:—

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

To be Subs Air Vice Marshal

Following amendment may be made in the Gazette of India published on 03 Sep 2011.

Particulars of the Air Officer

AVM (Actg) RK Dhir (15678) F(P)

FOR : DATE- 14.07.10

READ : DATE-01.07.10

AK SINGH

Dy Dir Personnel (Officer)-2B

AIR BRANCH

No. 494, dated 31st October 2012—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 01 Oct 2011 under the heading Gazette Notification of the Substantive Warrant Officer (Acting WOs paid whose substantive promotion POR taken in the year 2011) the following amendment is made :—

For :

Prabhjat Kumar Sharma

Read :

Prabhat Kumar Sharma

UMA NANDURI
Dir (Air-III)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012